

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 21—जून 27, 2014 (ज्येष्ठ 31, 1936)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21—JUNE 27, 2014 (JYAISTHA 31, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2014

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 131, दिनांक 20 मई 2014—निम्नांकित को नौसेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की अवधि तक के लिए
राष्ट्रीय कैडेट कोर का कैप्टन-इन-चीफ का अवैतनिक पद दिया जाता है :—

एडमिरल आर के धवन, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वाई एस एम, ए डी सी

नौसेना अध्यक्ष

रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

नई दिल्ली — 110011

17 अप्रैल 2014—

एस कटारिया

कर्नल

का. उप महानिदेशक (एम एस)

थल सेना विभाग

सं. 132, दिनांक 20 मई 2014—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

डी एस—12458 डब्ल्यू कप्तान आशिष भल्ला — 27-03-2012

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 27-09-2008 से दी जाती है। इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस—12460एन कप्तान संदीप कसाना — 02-04-2012

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 02-04-2009 से दी जाती है। इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस—12461डब्ल्यू कप्तान चामर्ति सुर्या — 02-04-2012

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 02-10-2008 से दी जाती है। इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस—12463एफ कप्तान सुनील कुमार गोयल — 09-04-2012

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 09-10-2008 से दी जाती है। इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस—12466पी कप्तान रवि कांत चिंताला — 17-04-2012

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 17-10-2008 से दी जाती है। इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस—12468ए कप्तान शनेन्द्र सिंह समब्याल — 18-05-2012

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 18-11-2008 से दी जाती है। इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस—12471ए कप्तान (सुश्री) अमरिन्दर कौर चीमा — 21-05-2012

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 21-05-2009 से दी जाती है। इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस-12481के कप्तान अनंत सिंह — 05-02-2013

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 05-02-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12490एल कप्तान आर श्रीनिवासन — 10-02-2013

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 12-08-2009 से दी जाती है । इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12492डब्ल्यू कप्तान तरुण कुमार सिंह — 15-02-2013

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 15-08-2009 से दी जाती है । इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12497पी कप्तान पाटील चेतन प्रल्हाद — 19-02-2013

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 19-02-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12512वाई कप्तान प्रियंक गुप्ता — 14-03-2013

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 14-09-2009 से दी जाती है । इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12514के कप्तान कानाराम चौधरी — 20-03-2013

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 20-03-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 133, दिनांक 21 मई 2014---राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:---

श्री हितेश कुमार को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 28 जुलाई 2003 (पूर्वाहन) से रु. 6,500-200-10,500/- वेतनमान पर ।

श्री डी नागेश को संनिर्माण अभियन्ता, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 17 दिसम्बर 2013 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15,600 - 39,100/- (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 6,600/- पर ।

राजीव रंजन खॉ
उप निदेशक (कार्मिक एए2)

थल सेना शाखा

सं. 134, दिनांक 21 मई 2014----राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :----

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

मेजर जनरल (व समकक्ष) से ले. जनरल (व समकक्ष) के पद पर

(क) पी पी वर्मा, एसएम — 01-12-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04317एम) काल्पनिक वरीयता 01-12-13 से दी जाती है ।

यश पांडे
मेजर जनरल
अपर महानिदेशक स.से.चि.से. (मा.सं.)

थल सेना शाखा

सं. 135, दिनांक 22 मई 2014----राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :----

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

(क) एस डी दुहान, वीएसएम — 01-04-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04014एक्स) काल्पनिक वरीयता 02-04-13 से दी जाती है ।

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के पद पर

(क) आर सी दास — 15-07-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-05452एम) काल्पनिक वरीयता 03-03-12 से दी जाती है ।

(ख) ए बाजपेई — 03-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04812एल) काल्पनिक वरीयता 31-03-12 से दी जाती है ।

(ग) एस काटोच — 20-07-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04739एक्स) काल्पनिक वरीयता 01-04-12 से दी जाती है ।

(घ) एन नैथानी — 05-07-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04745एल) काल्पनिक वरीयता 01-05-12 से दी जाती है ।

(ङ)	आर एस सरकार (एमआर-04747डब्ल्यू)	—	01-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29-05-12 से दी जाती है ।
(च)	(श्रीमती) एम कानितकर (एमआर-05596पी)	—	16-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-12 से दी जाती है ।
(छ)	डी चोपड़ा, वीएसएम (एमआर-05327एच)	—	02-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-07-12 से दी जाती है ।
(ज)	सुरेंद्र मोहन (एमआर-04145एच)	—	11-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-07-12 से दी जाती है ।
(झ)	एस एस वैसंपायन (एमआर-05474एल)	—	04-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-07-12 से दी जाती है ।
(ञ)	डी सी ठाकुर, एस, वीएसएम (एमआर-05491एल)	—	15-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08-07-12 से दी जाती है ।
(ट)	एम एम हरजाई (एमआर-05957एच)	—	05-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-12 से दी जाती है ।
(ठ)	एस टकियार (एमआर-05323एम)	—	28-01-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-08-12 से दी जाती है ।
(ड)	एस पी गोर्धी (एमआर-04979पी)	—	01-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-08-12 से दी जाती है ।
(ढ)	(श्रीमती) एस पटयाल (एमआर-04869ए)	—	28-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-09-12 से दी जाती है ।
(ण)	जे एस यादव (एमआर-05436पी)	—	24-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-07-12 से दी जाती है ।
(त)	ए के राजपूत (एमआर-05487एच)	—	01-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-09-12 से दी जाती है ।

ले. कर्नल(व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

(क)	वी कुमार (एमआर-05299एफ)	—	01-09-08, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-07-08 से दी जाती है ।
-----	-------------------------	---	--

राष्ट्रपति भारत के राजपत्र खण्ड-1, भाग-4 में 30 सितंबर 2008 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना शीर्षक नियमित सेना/स्थाई कमीशन व उपशीर्षक ले.कर्नल/कर्नल (टीएस) (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर ऊपर लिखे अधिकारी की पदोन्नति को रद्द करते हैं ।

लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

(क)	अशोक कुमार (एनटीआर-16608वाई)	—	01-09-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-13 से दी जाती है ।
(ख)	विनोद कुमारन टी टी (एनटीआर-16651ए)	—	01-09-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-09-13 से दी जाती है ।

लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

01	एमआर—06344पी	ले. कर्नल	सौरव चन्डा	19 जून 2013
02	एमआर—05938एक्स	ले. कर्नल	एम कुमार	01 दिसंबर 2013
03	एमआर—05940पी	ले. कर्नल	एन कारखानीस	01 दिसंबर 2013
01	एमआर—05947वाई	ले. कर्नल	सौमेन चौधरी	12 अगस्त 2013
02	एमआर—06177के	ले. कर्नल	(श्रीमती) रितु बक्षी	09 सितंबर 2013
01	एमआर—05550एम	ले. कर्नल	आर चतुर्वेदी	01 दिसंबर 2011
02	एमआर—07143एच	ले. कर्नल	के के राय	20 दिसंबर 2012
03	एमआर—05794ए	ले. कर्नल	एम के गुप्ता	23 अगस्त 2012
04	एमआर—05747एच	ले. कर्नल	ए के अग्रवाल	01 दिसंबर 2012
01	एमआर—05733एच	ले. कर्नल	टी घोष	01 दिसंबर 2012
02	एमआर—05901डब्ल्यू	ले. कर्नल	एस के दास	01 मई 2013
03	एमआर—05830ए	ले. कर्नल	ए एस भायल	01 जून 2013
01	एनटीआर 16650 एक्स	ले. कर्नल	मधु प्रीत सिंह	15 दिसंबर 2013
02	एनटीआर 16653 एल	ले. कर्नल	जीत सिंह	15 दिसंबर 2013
03	एनटीआर 16658 के	ले. कर्नल	जे एस सन्धु	15 दिसंबर 2013
04	एनटीआर 16654 एन	ले. कर्नल	गोरखनाथ सिंह	15 दिसंबर 2013
05	एनटीआर 16574डब्ल्यू	ले. कर्नल	मोहन सिंह	15 दिसंबर 2013

राजवीर सिंह
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक स.से.चि.से. (मा.सं.)

थल सेना विभाग

सं. 136, दिनांक 22 मई 2014—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

रक्षा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार	पदम बहादुर मल्ल	(जे सी- 629330-वाई)	01जनवरी 2013
सूबेदार	जगदीश चन्द	(जे सी- 578461-वाई)	01जनवरी 2013

सूबेदार	राजिन्दर सिंह	(जेसी- 488487-एम)	01 जनवरी 2013
सूबेदार	कश्मीर सिंह	(जेसी- 578502-एक्स)	01 जनवरी 2013
सूबेदार	शैलेन्द्रा सिंह	(जेसी- 418902-एल)	01 फरवरी 2013

स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार	राम ज्ञान राय	(जेसी- 558745-एफ)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	गोविन्दन के	(जेसी- 841924-के)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	बेज रावा साहेब	(जेसी- 204605-एच)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	मुथू पी	(जेसी- 236067-एन)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	शेर सिंह	(जेसी- 578711-पी)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	बलकार सिंह	(जेसी- 841931-ए)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	रेख बहादुर थापा	(जेसी- 841940-एफ)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	मदन कुमार मगर	(जेसी- 607383-एक्स)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	ऊज्जर सिंह राणा	(जेसी- 602584-एम)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	साबर सिंह	(जेसी- 529628-एन)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	उन्निकृष्णन के	(जेसी- 439075-एफ)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	सुमेर सिंह	(जेसी- 841954-एफ)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	धननजर सिंह	(जेसी- 592049-डब्ल्यू)	01 फरवरी 2013

स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक)(एस डी)	प्रदीप नियोग	(जेसी- 842215-एफ)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार (लिपिक)(एस डी)	श्याम बाबू पाण्डे	(जेसी- 842241-एच)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार (लिपिक)(एस डी)	विक्रम सिंह बिष्ट	(जेसी- 842254-ए)	01 फरवरी 2013

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार	समुन्दर राम	(जेसी- 402366-के)	01 अगस्त 2012
सूबेदार	मोहन सिंह	(जेसी- 260280-एम)	01 दिसम्बर 2012
सूबेदार	मन बहादुर लिम्बू	(जेसी- 634243-पी)	01 जून 2013
सूबेदार	कृष्ण लाल	(जेसी- 142146-के)	01 जुलाई 2013
सूबेदार	चित्र बहादुर गुरुंग	(जेसी- 212813-एम)	01 जुलाई 2013

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार	बलबीर सिंह	(जेसी- 592745-एन)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार	सुरिन्दर सिंह	(जेसी- 519872-ए)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार	अरविन्द कुमार सिंह	(जेसी- 841850-ए)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार	बेबी जॉर्ज	(जेसी- 419693-एल)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार	(जेसी- 238298-एच)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार	पियार चन्द चौहान	(जेसी- 518854-एल)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	रमाशंकर चौरसिया	(जेसी- 841963-एच)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	देवराज शर्मा	(जेसी- 519117-डब्ल्यू)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	पृथ्वीराज सिंह	(जेसी- 528821-एन)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	झारी लाल	(जेसी- 298722-के)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	वालसन टी	(जेसी- 842010-एम)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	करुणाकरन एम	(जेसी- 842013-ए)	01 जून 2013
नायब सूबेदार	वी जया कुमार	(जेसी- 842016-एन)	01 जून 2013
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र प्रसाद गुरुंग	(जेसी- 842017-डब्ल्यू)	01 जून 2013
नायब सूबेदार	ज्ञान सिंह	(जेसी- 842022-एफ)	01 जून 2013
नायब सूबेदार	जगजीत सिंह	(जेसी- 842026-एक्स)	01 जून 2013
नायब सूबेदार	के वासुदेवन	(जेसी- 842042-पी)	01 जून 2013
नायब सूबेदार	गिरधारी लाल	(जेसी- 236278-डब्ल्यू)	01 जून 2013
नायब सूबेदार	बजरंग सिंह शेखावत	(जेसी- 468542-डब्ल्यू)	01 जुलाई 2013

नायब सूबेदार	महावीर सिंह यादव	(जेसी- 448432-ए)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	भाना राम	(जेसी- 478917-एक्स)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	सुरजीत सिंह	(जेसी- 592944-एफ)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	धर्मेन्द्र कुमार	(जेसी- 662432-पी)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	कृष्णा बहादुर थापा	(जेसी- 623523-एच)	01 जुलाई 2013

स्थायी सूबेदार मेजर लिपिक (एस डी) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) (एस डी)	जगदा नन्दा मोहन्ती	(जेसी- 841868-डब्ल्यू)	01 जून 2013
----------------------------	--------------------	------------------------	-------------

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार	शंकर लाल	(जेसी- 370363-ए)	01 अक्टूबर 2012
सूबेदार	हरजान सिंह सुहाग	(जेसी- 237347-एन)	01 अक्टूबर 2012
सूबेदार	प्रेम बहादुर रोका	(जेसी- 623216-एल)	01 मार्च 2013
सूबेदार	सुरिन्दर कुमार	(जेसी- 578450-एम)	01 अगस्त 2013
सूबेदार	सिसुपालन नारायना	(जेसी- 202787-एच)	01 अगस्त 2013

स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार	ओंकार नाथ	(जेसी- 579269-एफ)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार	राकेश मोहन	(जेसी- 528704-एच)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार	गोपाल सिंह	(जेसी- 842881-एम)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	मेथ्यू के टी	(जेसी- 307308-पी)	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	अमर सिंह	(जेसी- 211126-के)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	हेम राज	(जेसी- 841979-एम)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	धरम पॉल	(जेसी- 842007-एम)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	दिलबारा सिंह	(जेसी- 508306-ए)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	सुन्दर तिवारी	(जेसी- 641104-एन)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	मदन सिंह	(जेसी- 529159-डब्ल्यू)	01 जुलाई 2013

नायब सूबेदार	राम शरन सिंह	(जेसी- 479285-के)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	ओम प्रकाश मिश्रा	(जेसी- 725442-डब्ल्यू)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	इन्दर सिंह	(जेसी- 579903-वाई)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	(जेसी- 519949-एक्स)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	बेनी के के	(जेसी- 403423-एम)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	खेम बहादुर छेत्री	(जेसी- 629712-एच)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	अवतार सिंह	(जेसी- 329233-एच)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	मीन बहादुर गुरुंग	(जेसी- 617722-ए)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	बक्सीश सिंह	(जेसी- 450171-डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	सुरिन्दर सिंह	(जेसी- 241531-डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013

स्थाई सूबेदार मेजर लिपिक (एस डी) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) (एस डी)	एस धनराज	(जेसी- 841967-वाई)	01 अगस्त 2013
----------------------------	----------	--------------------	---------------

स्थाई सूबेदार लिपिक (एस डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक)(एस डी)	वेमपती श्री हरि राव	(जेसी- 842310-एन)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार (लिपिक)(एस डी)	द्रोणा चार्य जोशी	(जेसी- 842311-डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार	अमरीक सिंह	(जेसी- 218061-के)	01 फरवरी 2013
सूबेदार	सत्या रंजन दास	(जेसी- 840792-पी)	01 फरवरी 2013
सूबेदार	राजेन्द्रा राई	(जेसी- 623335-एफ)	01 फरवरी 2013

स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार	सुरन्जन सिंह	(जेसी- 841915-एच)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	कृष्णा नन्द श्रीवास्तवा	(जेसी- 237071-एच)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	कमलजीत चौधरी	(जेसी- 255298-वाई)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	बेन्नी एम पी	(जेसी- 438736-के)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	परताप सिंह	(जेसी- 428878-एन)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	प्रेम चन्द	(जेसी- 489488-एफ)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	जोगिन्दर सिंह	(जेसी- 841947-एल)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	मुन्शी राम	(जेसी- 841949-डब्ल्यू)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	बालप सिंह	(जेसी- 528487-एक्स)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	अमरेन्द्र कुमार अमर	(जेसी- 841964-एल)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	शिव दत्त सिंह	(जेसी- 841989-एक्स)	01 मार्च 2013

स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक)(एस डी)	देव प्रकाश तिवारी	(जेसी- 842212-एन)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार (लिपिक)(एस डी)	यशपाल पनवर	(जेसी- 842301-एम)	01 फरवरी 2013

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार	दामोदरन जे	(जेसी- 259855-के)	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	महाबीर प्रसाद	(जेसी- 488566-एल)	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	अवधेश कुमार	(जेसी- 141689-वाई)	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	चन्द्राप्पा अक्की	(जेसी- 840918-के)	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	जोगिन्दर चन्द शर्मा	(जेसी- 588009-एक्स)	01 मई 2013
सूबेदार	गोपाल लाल गुर्जर	(जेसी- 478102-डब्ल्यू)	01 मई 2013
सूबेदार	ठाकुर सिंह परिहार	(जेसी- 538323-पी)	01 मई 2013
सूबेदार	अमर बहादुर कार्कि	(जेसी- 691483-एल)	01 मई 2013

सूबेदार	नन्दा कुमारन एम आर	(जेसी- 418149-एक्स)	01 मई 2013
सूबेदार	भारत सिंह	(जेसी- 418036-पी)	01 मई 2013
सूबेदार	हंस राज	(जेसी- 428179-एच)	01 मई 2013

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार	सनातन दास	(जेसी- 810322-पी)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	भगवान दास	(जेसी- 579000-एफ)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	सुदर्शन सिंह यादव	(जेसी- 841962-ए)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	मथरा दास रैना	(जेसी- 579260-एम)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	बिजय बहादुर	(जेसी- 841972-के)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	सुरिन्दर कुमार	(जेसी- 841976-ए)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	मदन लाल	(जेसी- 841998-वाई)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	बलविन्दर पाल सिंह	(जेसी- 508513-एम)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार	(जेसी- 403339-एम)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	नन्दन सिंह	(जेसी- 539436-के)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	खोगेन्द्रा सिंघा, एस एम	(जेसी- 548841-एच)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	गुरनाम सिंह	(जेसी- 509047-पी)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	बसंत सिंह	(जेसी- 349394-एम)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	विजय कुमार	(जेसी- 580097-के)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	मनि बाबू सिंघा	(जेसी- 549211-पी)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	खुशाल सिंह	(जेसी- 413010-डब्ल्यू)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	राम कुमार लिम्बू	(जेसी- 634064-पी)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	राजबीर सिंह	(जेसी- 489486-डब्ल्यू)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	मोहिन्दर सिंह	(जेसी- 429781-पी)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	झाबर मल पवादिया	(जेसी- 489372-एल)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	सूबे सिंह	(जेसी- 299202-एल)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	राकेश कुमार	(जेसी- 430020-डब्ल्यू)	01 मई 2013
नायब सूबेदार	राकेश कुमार	(जेसी- 842000-एच)	01 मई 2013

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार	महाबीर प्रसाद	(जेसी- 538191-एम)	01 अक्टूबर 2012
सूबेदार	शिवकुमारन नायर वी	(जेसी- 438080-ए)	01 अक्टूबर 2012
सूबेदार	प्रदीप कुमार गुरुंग	(जेसी- 612004-ए)	01 नवम्बर 2012
सूबेदार	भोज बहादुर गुरुंग	(जेसी- 183554-के)	01 दिसम्बर 2012
सूबेदार	राजेन्द्रन ए	(जेसी- 305580-एच)	01 दिसम्बर 2012
सूबेदार	बलबीर सिंह	(जेसी- 449165-डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2012

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार	यम बहादुर धुरेल मगर	(जेसी- 612472-ए)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार	मनबीर सिंह	(जेसी- 256562-एन)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	अमृत पाल सिंह	(जेसी- 237158-के)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	जितेन्द्र प्रसाद	(जेसी- 558492-एक्स)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	धास अशोक रामचन्द्रा	(जेसी- 842880-के)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	बच्चू सिंह	(जेसी- 469303-एन)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	समीन्दर सिंह	(जेसी- 328703-डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	दीपक छेत्री	(जेसी- 629494-पी)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	दिवान सिंह	(जेसी- 662471-एन)	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	अनिल कुमार तिवारी	(जेसी- 264394-पी)	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	मेथ्यू के टी	(जेसी- 307308-पी)	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	डेविड डी	(जेसी- 725276-एन)	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	पूरन सिंह शाही	(जेसी- 694448-एन)	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	अरविनदाक्षन पी के	(जेसी- 265189-ए)	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	जगदीश सिंह नयाल	(जेसी- 569388-के)	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	होटोवी शिखु	(जेसी- 548942-डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार	मुजाफ्फार खान	(जेसी- 479480-एफ)	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	जय किशन राना	(जेसी- 374483-डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	प्रताप सिंह	(जेसी- 469574-एल)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	राघव प्रसाद केशरी	(जेसी- 239657-एक्स)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	सतीश कुमार	(जेसी- 267637-ए)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	राजेनदर सिंह रावत	(जेसी- 268738-ए)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार	(जेसी- 569853-एल)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	किशुन सिंह	(जेसी- 241002-के)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	भगवान सिंह जसरोटिया	(जेसी- 579021-एक्स)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	कुमार छेत्री	(जेसी- 263496-वाई)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	सोनम दुकपा	(जेसी- 602161-एफ)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	यीक बहादुर थापा	(जेसी- 623003-एक्स)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	बलबीर सिंह	(जेसी- 841894-एक्स)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	शेष मणि	(जेसी- 841901-एच)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	एम आरुमुघम	(जेसी- 841902-एल)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	गुलजार सिंह	(जेसी- 841905-वाई)	01 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार	एम अनन्दन	(जेसी- 841925-एम)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	पूरन सिंह	(जेसी- 841929-एच)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	कपिलदेव सिंह	(जेसी- 841934-एन)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	वी रामाचंद्रन	(जेसी- 841939-एम)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	देसाई पंडित श्रीपति, एस एम	(जेसी- 458627-वाई)	01 जनवरी 2013

स्थाई सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक)(एस डी)	पवन कुमार कालिया	(जेसी- 842208-एल)	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार (लिपिक)(एस डी)	तरसेम कुमार	(जेसी- 842209-एन)	01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

*	हवलदार	रजनीकान्त मोरे	(10149648-एम अब जे सी 843442-एन)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	जगतार सिंह	(3978040-एम अब जे सी 843443-डब्ल्यू)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	सर्व देव डुबे	(14464884-एच अब जे सी 843444-वाई)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	होशियार सिंह	(4056146-वाई अब जे सी 843445-एफ)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	सुरजीत सिंह	(4457259-एफ अब जे सी 843446-के)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद चौबे	(14904480-वाई अब जे सी 843447-एम)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	सुचा सिंह	(3382278-एम अब जे सी 843449-एक्स)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	जगजीत सिंह	(3383821-ए अब जे सी 843451-पी)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	जगरूप चंद	(10197151-एम अब जे सी 843455-एल)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	हरदीप सिंह	(10197328-पी अब जे सी 843460-डब्ल्यू)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	गुरबचन सिंह	(10197443-पी अब जे सी 843461-वाई)	01 जुलाई 2013

*	हवलदार	पाटिल युवराज नागो	(10436090-एच अब जे सी 843463-के)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	ललन सिंह	(4262258-वाई अब जे सी 843465-पी)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	प्रभू दयाल	(10302078-ए अब जे सी 843466-एक्स)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	रामबिलाश	(10404662-एल अब जे सी 843468-एच)	01 जुलाई 2013
*	हवलदार	लालजी शर्मा	(10389092-ए अब जे सी 843469-एल)	01 जुलाई 2013
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013)				
**	हवलदार	उदय नारायण सिंह	(3612012-वाई अब जे सी 843474-डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	नेत्र पाल	(2873102-एम अब जे सी 843475-वाई)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	जगदीश चंद	(13681172-के अब जे सी 843476-एफ)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	ओम जोसे	(10165547-एच अब जे सी 843477-के)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	बिशन सिंह	(9081044-ए अब जे सी 843479-पी)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	राम मिलन	(10181442-एच अब जे सी 843480-के)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	श्यामबीर अवस्थी	(2982846-एन अब जे सी 843481-एम)	01 अगस्त 2013

**	हवलदार	राम दयाल राय	(10181665-ए अब जे सी 843482-पी)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	राम करन	(1470389-ए अब जे सी 843484-ए)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	जोगिनदर सिंह	(3383673-एम अब जे सी 843485-एच)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	जितेन्द्रा सिंह	(10181393-एल अब जे सी 843486-एल)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	बलबीर सिंह	(3382850-पी अब जे सी 843488-डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	बलबिन्दर सिंह	(3383506-डब्ल्यू अब जे सी 843489-वाई)	01 अगस्त 2013
**	हवलदार	चन्दर भान	(3172604-एम अब जे सी 843490-एन)	02 अगस्त 2013
***(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013)				
***	हवलदार	झंडा सिंह	(3973626-वाई अब जे सी 843497-एक्स)	02 सितम्बर 2013
***(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013)				

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

****	हवलदार लिपिक	राजनाथ यादव	(10181678-एक्स अब जे सी 843470-ए)	01 अगस्त 2013
****	हवलदार लिपिक	धनेस्वर सा	(10260107-ए अब जे सी 843471-एच)	01 अगस्त 2013

**** हवलदार रामा कांत मिश्रा (10436173-एन अब 01 अगस्त 2013
लिपिक जे सी 843472-एल)

**** हवलदार जादव अजीनाथ (14498384-एक्स अब 05 अगस्त 2013
लिपिक दनयदिव जे सी 843473-एन)

****(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013)

***** हवलदार संतबीर सिंह (10405274-ए अब 01 सितम्बर
लिपिक जे सी 843491-डब्ल्यू) 2013

***** हवलदार हनुमन्था वीरन्ना (14269607-एक्स अब 01 सितम्बर
लिपिक जे सी 843492-वाई) 2013

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

* हवलदार कान सिंह (10302186-के अब 13 फरवरी 2012
जे सी 843116-एल)

* हवलदार अजीत सिंह (10361027-के अब 13 फरवरी 2012
जे सी 843117-एन)

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 फरवरी 2012)

** हवलदार श्री चंद (13614544-एक्स अब 13 मार्च 2013
जे सी 843342-एच)

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013)

*** हवलदार जाँनी के ए (10289794-के अब 25 मार्च 2013
जे सी 843379-के)

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मार्च 2013)

**** हवलदार दिलीप राई (9416055-पी अब 22 मई 2013
जे सी 843416-एम)

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013)

*****	हवलदार	सुरजीत सिंह	(3383198-एफ अब जे सी 843419-ए)	20 मई 2013
*****	हवलदार	तरसेम सिंह	(3383456-डब्ल्यू अब जे सी 843420-पी)	20 मई 2013
*****	हवलदार	जसवंत सिंह	(3382279-पी अब जे सी 843421-एक्स)	20 मई 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता			20 मई 2013)
*****	हवलदार	जगरूप सिंह	(10404777-वाई अब जे सी 843426-डब्ल्यू)	01 जून 2013
*****	हवलदार	सूचा सिंह	(3381787-वाई अब जे सी 843427-वाई)	01 जून 2013
*****	हवलदार	लखविन्दर सिंह	(3383674-पी अब जे सी 843428-एफ)	01 जून 2013
*****	हवलदार	भजन सिंह	(3383767-के अब जे सी 843429-के)	01 जून 2013
*****	हवलदार	सुखचन सिंह	(3383160-एक्स अब जे सी 843430-वाई)	01 जून 2013
*****	हवलदार	तरसेम सिंह	(3383653-वाई अब जे सी 843431-एफ)	01 जून 2013
*****	हवलदार	सरबजीत सिंह	(3383789-एच अब जे सी 843432-के)	01 जून 2013
*****	हवलदार	नागिन्दर पाल सिंह	(3383788-ए अब जे सी 843433-एम)	01 जून 2013
*****	हवलदार	राम सिंह	(3383213-एल अब जे सी 843434-पी)	01 जून 2013
*****	हवलदार	हरजिनदार सिंह	(3383029-ए अब जे सी 843435-एक्स)	01 जून 2013
*****	हवलदार	हरबंस सिंह	(3383283-के अब जे सी 843436-ए)	01 जून 2013

*****	हवलदार	बलजीत सिंह	(3383123-के अब जे सी 843437-एच)	01 जून 2013
*****	हवलदार	मंजीत सिंह	(3382807-एन अब जे सी 843438-एल)	01 जून 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013)			
*****	हवलदार	हरबंस सिंह	(3382990-एफ अब जे सी 843439-एन)	01 जून 2013
*****	हवलदार	सुरजीत सिंह	(3382385-एन अब जे सी 843440-एच)	01 जून 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013)			
*****	हवलदार	कुलविन्दर सिंह	(3383909-डब्ल्यू अब जे सी 843448-पी)	01 जुलाई 2013
*****	हवलदार	हार्जिन्दर पाल सिंह	(3382832-एम अब जे सी 843450-एम)	01 जुलाई 2013
*****	हवलदार	जगतार सिंह	(3382324-डब्ल्यू अब जे सी 843452-एक्स)	01 जुलाई 2013
*****	हवलदार	कुलदीप सिंह	(3383652-डब्ल्यू अब जे सी 843453-ए)	01 जुलाई 2013
*****	हवलदार	लाभ सिंह	(3383258-एल अब जे सी 843454-एच)	01 जुलाई 2013
*****	हवलदार	रामाधार	(10404386-ए अब जे सी 843456-एन)	01 जुलाई 2013
*****	हवलदार	शिव प्रताप सिंह	(2970677-एल अब जे सी 843457-डब्ल्यू)	01 जुलाई 2013

*****	हवलदार	सुभाष सिंह	(3973445-एन अब जे सी 843458-वाई)	01 जुलाई 2013
*****	हवलदार	ब्रिजेश सिंह	(3165745-वाई अब जे सी 843459-एफ)	01 जुलाई 2013
*****	हवलदार	गजराज सिंह	(10404875-वाई अब जे सी 843462-एफ)	01 जुलाई 2013
*****	हवलदार	शिव राम थापा	(5447417-एन अब जे सी 843464-एम)	01 जुलाई 2013
*****	हवलदार	केहर सिंह	(10478728-एल अब जे सी -843467-ए)	01 जुलाई 2013

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

*****	हवलदार	करांडे नागनाथ	(10118879-एफ अब लिपिक जे सी 843422-ए)	01 जून 2013
*****	हवलदार	ए मनोहरन	(10452099-एफ अब लिपिक जे सी 843424-एल)	01 जून 2013

***** (नायब सूबेदार(लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

*	हवलदार	रबिंद्रा प्रसाद राई	(2973987-एफ अब जे सी 843212-ए)	18 मार्च 2013
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012)				
**	हवलदार	सरम सिंह	(13614280-एफ अब जे सी 843263-एन)	27 दिसम्बर 2012

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012)

***	हवलदार	देव राज सिंह	(10181526-डब्ल्यू अब जे सी 843349-एम)	12 मार्च 2013
***	हवलदार	गोकुल राई	(5446776-पी अब जे सी 843350-एफ)	15 मार्च 2013
***	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2012)			
****	हवलदार	शिवपाल वाघमारे	(10227643-एच अब जे सी 843333-एफ)	05 मार्च 2013
****	हवलदार	सुबाश चन्दर	(10361291-एक्स अब जे सी 843340-एक्स)	01 जनवरी 2013
****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013)			
*****	हवलदार	रूप सिंह	(2466863-एफ अब जे सी 843347-एफ)	15 फरवरी 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जनवरी 2013)			
*****	हवलदार	कलक्टर दुबे	(14470564-के अब जे सी 843354-एक्स)	01 फरवरी 2013
*****	हवलदार	एस रामर	(14361048-वाई अब जे सी 843357-एल)	25 फरवरी 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013)			
*****	हवलदार	सोहन सिंह रावत	(4059497-वाई अब जे सी 843362-डब्ल्यू)	14 मार्च 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 2013)			
*****	हवलदार	राम गोपाल सिंह	(10404578-एल अब जे सी 843363-वाई)	01 मार्च 2013
*****	हवलदार	रबाती लाल	(14375400-एच अब जे सी 843371-एक्स)	09 मार्च 2013

*****	हवलदार	रघुबीर सिंह	(10389280-एफ अब जे सी 843374-एल)	01 मार्च 2013
***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013)				
*****	हवलदार	राजेन्द्र प्रसाद	(10134272-वाई अब जे सी 843378-एफ)	25 मार्च 2013
*****	हवलदार	रबीन्द्रन के बी	(10289859-एफ अब जे सी 843380-वाई)	25 मार्च 2013
*****	हवलदार	तरसेम लाल	(10361333-वाई अब जे सी 843381-एफ)	25 मार्च 2013
***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मार्च 2013)				
*****	हवलदार	दलबीर सिंह	(10197715-के अब जे सी 843386-ए)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	किशन सिंह	(10313966-पी अब जे सी 843387-एच)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	अमृत गुरुंग	(5041848-डब्ल्यू अब जे सी 843388-एल)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	कमलेश चन्द	(13742398-एन अब जे सी 843389-एन)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	ओम प्रकाश शर्मा	(10361279-डब्ल्यू अब जे सी 843390-एच)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	पान सिंह	(10404633-डब्ल्यू अब जे सी 843391-एल)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	तेज ऊददिन मिया	(10244331-एच अब जे सी 843392-एन)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	सत्य नारायण	(14245697-एल अब जे सी 843393-डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2013

*****	हवलदार	सुरेश यादव	(10389393-के अब जे सी 843394-वाई)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	रणबीर सिंह	(13612953-एम अब जे सी 843395-एफ)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	शिव राज सिंह भारद्वज	(10404719-पी अब जे सी 843396-के)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	प्रदीप चन्द्रा सैकिया	(14351555-वाई अब जे सी 843397-एम)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	कृपाल सिंह	(2673108-के अब जे सी 843398-पी)	01 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	अशोक कुमार राणा	(5243494-एफ अब जे सी 843399-एक्स)	01 अप्रैल 2013

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013)

*****	हवलदार	मन बहादुर छेत्री	(5844796-एक्स अब जे सी 843400-एफ)	29 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	सेवा सिंह	(3383346-एफ अब जे सी 843401-के)	29 अप्रैल 2013
*****	हवलदार	नरेश सिंह	(2877197-पी अब जे सी 843402-एम)	29 अप्रैल 2013

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अप्रैल 2013)

*****	हवलदार	राधे श्याम यादव	(10181720-एल अब जे सी 843403-पी)	01 मई 2013
*****	हवलदार	आशा राम	(10404650-डब्ल्यू अब जे सी 843404-एक्स)	01 मई 2013
*****	हवलदार	कालीया मूर्ती ए	(10451632-वाई अब जे सी 843405-ए)	01 मई 2013

*****	हवलदार	दीना नाथ सिंह	(6378715-एम अब जे सी 843406-एच)	01 मई 2013
*****	हवलदार	अमर देव शर्मा	(8824320-एम अब जे सी 843407-एल)	01 मई 2013
*****	हवलदार	देवीन्दर सिंह	(4457411-के अब जे सी 843408-एन)	01 मई 2013
*****	हवलदार	नारायण दत्त	(1459825-एम अब जे सी 843409-डब्ल्यू)	01 मई 2013
*****	हवलदार	रत्ना बहादुर राई	(9414311-ए अब जे सी 843410-एल)	01 मई 2013
*****	हवलदार	रमेश कुमार	(6367325-के अब जे सी 843411-एन)	01 मई 2013
*****	हवलदार	भगवान सिंह गुरुंग	(5343919-के अब जे सी 843412-डब्ल्यू)	01 मई 2013
*****	हवलदार	सुख मन लिम्बू	(9415864-एच अब जे सी 843413-वाई)	07 मई 2013
*****	हवलदार	बिरेन्द्रा पाल सिंह	(2872963-डब्ल्यू अब जे सी 843414-एफ)	01 मई 2013
*****	हवलदार	दलीप सिंह	(2875582-ए अब जे सी 843415-के)	01 मई 2013
*****	हवलदार	मस्तान सिंह	(3382177-वाई अब जे सी 843417-पी)	01 मई 2013
*****	हवलदार	हरभजन सिंह	(3382683-के अब जे सी 843418-एक्स)	01 मई 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013)			

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

***** हवलदार सुरजीत सिंह (3382411-केअब 01 अप्रैल 2013
लिपिक जे सी 843382-के)

***** हवलदार अभिमान रौत (10227372-डब्ल्यू अब 01 अप्रैल 2013
लिपिक जे सी 843383-एम)

***** हवलदार भास्करन एन (10290300-एफ अब 01 अप्रैल 2013
लिपिक जे सी 843384-पी)

***** हवलदार हबीबूलाह (13750171-पी अब 01 अप्रैल 2013
लिपिक खान जेसी 843385-एक्स)

***** (नायब सूबेदार(लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013)

***** हवलदार अनिल (10374151-के अब 01 जून 2013
लिपिक मालाकार जे सी 843423 एच)

***** हवलदार संजय राठौर (14260609-एफ अब 01 जून 2013
लिपिक जे सी 843424-एन)

***** (नायब सूबेदार(लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

* हवलदार स्वरन सिंह (10361215-एल अब 22 फरवरी 2013
जे सी 843279-वाई)

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012)

** हवलदार नरेश चन्द्रा नायक (10259489-एच अब 21 दिसम्बर 2012
जे सी 843299-एम)

** हवलदार राममूरत यादव (10404542-एम अब 11 फरवरी 2013
जे सी 843311-एच)

** हवलदार रिपुदामन सिंह (1266019-वाई अब 22 फरवरी 2013
यादव जे सी 843314-डब्ल्यू)

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012)

***	हवलदार	सीतल सिंह	(1559484-एफ अब जे सी 843360-एल)	11 फरवरी 2013
***	हवलदार	सूरज परकाश	(10361770-वाई अब जे सी 843361-एन)	02 फरवरी 2013
*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013)				
****	हवलदार	कृष्णा कुमार श्रीवास्तव	(10389250-के अब जे सी 843364-एफ)	01 मार्च 2013
****	हवलदार	महेन्दर सिंह	(13680580-एच अब जे सी 843365-के)	01 मार्च 2013
****	हवलदार	रबिन्द्रन ऐ वी	(10289783-एक्स अब जे सी 843366-एम)	01 मार्च 2013
****	हवलदार	जनक राज	(9081592-ए अब जे सी 843367-पी)	11 मार्च 2013
****	हवलदार	राज बहादुर गुरुंग	(5243758-एक्स अब जे सी 843368-एक्स)	01 मार्च 2013
****	हवलदार	बोटा सिंह	(3381516-एफ अब जे सी 843370-पी)	01 मार्च 2013
****	हवलदार	छानकार सिंह	(14451887-एक्स अब जे सी 843372-ए)	01 मार्च 2013
****	हवलदार	सतीश कुमार	(13748776-एक्स अब जे सी 843373-एच)	01 मार्च 2013
****	हवलदार	एल अरुल पूषबा राज	(13611819-पी अब जे सी 843375-एन)	01 मार्च 2013
****	हवलदार	लाल प्रसाद बूरा	(5040376-वाई अब जे सी 843376-डब्ल्यू)	01 मार्च 2013
**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013)				
*	हवलदार	सतपाऊल	(2469953-डब्ल्यू अब जे सी 843251-वाई)	01 फरवरी 2013

*	हवलदार	किसना बहादुर थापा	(9413888-एन अब जे सी 843253-के)	10 जनवरी 2013
*	हवलदार	रगबीर लाल	(9084151-पी अब जे सी 843254-एम)	29 जनवरी 2013
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता				22 सितम्बर 2012)
**	हवलदार	सैतान सिंह	(10301966-एच अब जे सी 843285-एम)	21 जनवरी 2013
**	हवलदार	राजा राम तिवारी	(2979116-एक्स अब जे सी 843287-एक्स)	24 जनवरी 2013
**	हवलदार	टी लाम्जासोई	(4351241-ए अब जे सी 843290-एक्स)	05 फरवरी 2013
**	हवलदार	राम फूल सिंह	(7772123-डब्ल्यू अब जे सी 843295-डब्ल्यू)	04 फरवरी 2013
** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता				26 नवम्बर 2012)
***	हवलदार	कुलवंत सिंह	(4461307-एन अब जे सी 843328-डब्ल्यू)	01 जनवरी 2013
***	हवलदार	लीलाधर	(2872203-एन अब जे सी 843330-एन)	01 जनवरी 2013
***	हवलदार	जीएच मोहिउद्दीन खान	(9081878-पी अब जे सी 843336-पी)	09 जनवरी 2013
***	हवलदार	मोहन लाल रैना	(1063611-ए अब जे सी 843339-एच)	04 फरवरी 2013
*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता				01 जनवरी 2013)
****	हवलदार	मोहकम सिंह	(14909274-वाई अब जे सी 843351-के)	01 फरवरी 2013

****	हवलदार	स्वपन कुमार सरकार	(14347830-डब्ल्यू अब जे सी 843352-एम)	01 फरवरी 2013
****	हवलदार	तारा बहादुर गुरुंग	(5242276-डब्ल्यू अब जे सी 843353-पी)	01 फरवरी 2013
****	हवलदार	नरेश पाल सिंह	(14248603-एन अब जे सी 843355-ए)	01 फरवरी 2013
****	हवलदार	रवी जी	(14357450-एल अब जे सी 843356-एच)	01 फरवरी 2013
****	हवलदार	बगिचा सिंह	(3377190-वाई अब जे सी 843358-एन)	05 फरवरी 2013

****(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013)

***** हवलदार ओम प्रकाश (2974985-एच अब 01 मार्च 2013
जे सी 843369-ए)

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013)

* हवलदार सुरेंद्रा प्रसाद (10260142 – एच अब 07 नवम्बर 2012
नायक जे सी 843017एच)

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011)

** हवलदार चिनखोलन (4350785 – एन अब 06 अक्टूबर 2012
जे सी 843034एच)

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011)

*** हवलदार मंगल चौहान (14342925– एम अब 03 जुलाई 2012
जे सी 843206एम)

***(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012)

**** हवलदार धरमबीर (10358181एक्स अब 10 नवम्बर 2012
जे सी 843256एक्स)

*****	हवलदार	राम फल	(14347080- एच अब जे सी 843257 ए)	03 दिसम्बर 2012
*****	हवलदार	मनी राम	(10361022- एल अब जे सी 843258 एच)	16 दिसम्बर 2012
*****	हवलदार	धन सिंह	(1465542- एफ अब जे सी 843259एल)	26 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	महेन्दर सिंह यादव	(14340876-डब्ल्यू अब जे सी 843262एल)	26 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	बी वेलायुथम	(14333439- एन अब जे सी 843264 डब्ल्यू)	22 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	सी सुब्रमनियम	(10451587-एक्स अब जे सी 843265वाई)	20 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	मारुती निंगप्पा केदारी	(10420018- एच अब जे सी 843266एफ)	27 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	बी राजेन्दरन	(10451607- ए अब जे सी 843267के)	01दिसम्बर 2012
*****(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012)				
*****	हवलदार	अजय सिंह	(13611719-के अब जे सी 843268एम)	08 अक्टूबर 2012
***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अक्टूबर 2012)				
*****	हवलदार	ब्रिज मोहन लाल	(10404507- के अब जे सी 843269पी)	22 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	दूध नाथ यादव	(10404541-के अब जे सी 843270 के)	01 दिसम्बर 2012
***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अक्टूबर 2012)				
*****	हवलदार	कुलदीप राई	(10197445-ए अब जे सी 843275 एच)	19 नवम्बर 2012

*****	हवलदार	रूप लाल	(13735842डब्ल्यू अब जे सी 843277 एन)	01 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	बलदेव सिंह	(10361138- एफ अब जे सी 843278डब्ल्यू)	11 दिसम्बर 2012
*****	हवलदार	बाबु लाल	(10134181-पी अब जे सी 843281 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	राम कुवेर	(10465846-ए अब जे सी 843282वाई)	15 नवम्बर 2012
***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01नवम्बर 2012)				
*****	हवलदार	बरिन्दा प्रसाद सिंह	(2666180-एक्स अब जे सी 843283एफ)	05 नवम्बर 2012
***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 नवम्बर 2012)				
*****	हवलदार	पासंग तमांग	(5448244-एन अब जे सी 843286पी)	26 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	राम चेला कारपेंटर	(10389082-डब्ल्यू अब जे सी 843291 ए)	26 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	वेद प्रकाश	(4168384-एम अब जे सी 843292 एच)	27 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	जोगिन्दर सिंह	(14466542 एन अब जे सी 843294 एन)	26 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	राम कल्याण जाट	(2670212-एम अब जे सी 843296वाई)	27 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	भागिरथ राम	(2669569-डब्ल्यू अब जे सी 843297 एफ)	08 दिसम्बर 2012
*****	हवलदार	काशि नाथ	(10227151-के अब जे सी 843298 के)	11 दिसम्बर 2012
***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 नवम्बर 2012)				

*****	हवलदार	पी राजसेखरन	(10165527-पी अब जे सी 843302एफ)	01 दिसम्बर 2012
*****	हवलदार	सुमेर चंद	(10404501-एच अब जे सी 843303के)	07 दिसम्बर 2012
*****	हवलदार	गंगा राम	(10314265-एल अब जे सी 843304 एम)	01 दिसम्बर 2012
*****	हवलदार	सी चेतनामरा	(10165607-एम अब जे सी 843310 ए)	01 दिसम्बर 2012
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012)			
*****	हवलदार	जाधव दत्तात्रिय	(10118862 एन अब जे सी 843312एल)	07 दिसम्बर 2012
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012)			
*****	हवलदार	मोहनन के वी	(10358697 ए अब जे सी 843315 वाई)	10 दिसम्बर 2012
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2012)			

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

*****	हवलदार	नर बहादुर	(5244165-एक्स अब लिपिक गुरुंग जे सी 843255 पी)	12 नवम्बर 2012
*****	(नायब सूबेदार(लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर डाले प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012)			
*****	हवलदार	यु विजया	(10451994-ए अब लिपिक कुमार जे सी 843271एम)	01 नवम्बर 2012
*****	हवलदार	ब्रिजेन्द्रा कुमार	(1058457- एच अब लिपिक सिंह जे सी 843272 पी)	01 नवम्बर 2012
*****	(नायब सूबेदार(लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012)			

***** हवलदार एस वेंकटेश्वरन (14577480-के अब 01 नवम्बर 2012
लिपिक जेसी 843273 एक्स)

***** (नायब सूबेदार(लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2012)

***** हवलदार लवाटे शरद (14407264-एन अब 03 मार्च 2012
लिपिक बाबन जे सी 843317 के)

***** (नायब सूबेदार(लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009)

***** हवलदार गुरमीत सिंह (8824100-एच अब 01 जनवरी 2013
लिपिक जे सी 843321 एम)

***** हवलदार दर्शन लाल (3977350-एल अब 01 जनवरी 2013
लिपिक जे सी 843323 एक्स)

***** (नायब सूबेदार(लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01जनवरी 2013)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

* हवलदार एस राजेन्द्रन (10358363- एल अब 19 दिसम्बर 2012
जे सी 843252एफ)

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2012)

** हवलदार एम फैयाज़ (1366064 – पी अब 24 दिसम्बर 2012
अली जे सी 843260ए)

** हवलदार उमेश कुमार (6367424 – एम अब 17 दिसम्बर 2012
सिंह जे सी 843261एच)

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012)

*** हवलदार सुरेश चन्द्रा (4059259-एम अब 14 दिसम्बर 2012
चौहान जे सी 843274ए)

***	हवलदार	परम जीत सिंह	(4461909-एफ अब जे सी 843276 एल)	18 दिसम्बर 2012
***	हवलदार	पदम बहादुर छेत्री	(5844083-एम अब जे सी 843280एन)	17 दिसम्बर 2012
*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012)				
****	हवलदार	प्रेमा कुमार ए के	(14547778-एच अब जे सी 843293एल)	31 दिसम्बर 2012
**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 नवम्बर 2012)				
*****	हवलदार	डेनीयल नायक	(10259135-ए अब जे सी 843300 डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2012
*****	हवलदार	किरपा राम वर्मा	(4174913-के अब जे सी 843301वाई)	05 दिसम्बर 2012
*****	हवलदार	पट्टन अमीर खान	(1376370-एच अब जे सी 843305 पी)	01 दिसम्बर 2012
*****	हवलदार	बसन्ता किशोर साहू	(4260204-वाई अब जे सी 843306एक्स)	29 दिसम्बर 2012
*****	हवलदार	पाटिल नामदेव गंगाराम	(14241852- के अब जे सी 843308एच)	18 दिसम्बर 2012
***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012)				
*****	हवलदार	जगदीश सिंह	(10197620-के अब जे सी 843316 एफ)	10 दिसम्बर 2012
***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2012)				
*****	हवलदार	संतोख सिंह	(4454965-एक्स अब जे सी 843324 ए)	01 जनवरी 2013

*****	हवलदार	ए लाजर	(10289547-डब्ल्यू अब जे सी 843326 एल)	01 जनवरी 2013
*****	हवलदार	राम बहादुर थापा	(5342656-के अब जे सी 843334के)	01 जनवरी 2013
*****	हवलदार	राजेश कुमार	(10405471-एच अब जे सी 843341ए)	01 जनवरी 2013
*****	हवलदार	ईश्वर सिंह	(10181669 डब्ल्यू अब जे सी 843344एन)	05 जनवरी 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता			01 जनवरी 2013)
*****	हवलदार	दिनेश चन्द्रा कश्यप	(14216240-एफ अब जे सी 843346वाई)	07 जनवरी 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता			07 जनवरी 2013)
*	हवलदार	तेज सिंह	(10302067- एन अब जे सी 843284के)	07 जनवरी 2013
*	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 नवम्बर 2012)			
**	हवलदार	धर्माराजन आर	(2574298 -वाई अब जे सी 843288ए)	23 जनवरी 2013
**	हवलदार	कृष्णा भूषण प्रसाद सिंह	(4256096 - एच अब जे सी 843289एच)	05 फरवरी 2013
**	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 नवम्बर 2012)			
***	हवलदार	नेत्रा प्रसाद गुरुंग	(5040574-के अब जे सी 843307ए)	07 जनवरी 2013
***	हवलदार	गांधी बोईना चीना बाबू	(2580332- के अब जे सी 843309एल)	04 फरवरी 2013
***	हवलदार	पाटिल तानाजी आनन्दा	(10146563- एल अब जे सी 843313एन)	16 जनवरी 2013
***	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012)			

*****	हवलदार	बिरेन्दर प्रसाद पुरी	(14465608-एच अब जे सी 843325एच)	29 जनवरी 2013
*****	हवलदार	गिनखानसुत पाइते	(4350693-डब्ल्यू अब जे सी 843327एन)	01 जनवरी 2013
*****	हवलदार	सुनील कुमार पाण्डे	(8824261-एल अब जे सी 843329 वाई)	07 फरवरी 2013
*****	हवलदार	पाटिल अशोक शंकर	(10436718-ए अब जे सी 843331डब्ल्यू)	01 जनवरी 2013
*****	हवलदार	अवधेश सिंह	(10404472-वाई अब जे सी 843332 वाई)	01 जनवरी 2013
*****	हवलदार	शमशीर खान	(2673476-वाई अब जे सी 843335 एम)	11 जनवरी 2013
*****	हवलदार	दिनेश कुमार दास	(10260275-वाई अब जे सी 843337एक्स)	01 जनवरी 2013
*****	हवलदार	गुरदयाल सिंह	(14323265- एल अब जे सी 843338ए)	01 जनवरी 2013
*****	हवलदार	हरजीत सिंह	(10478732- एन अब जे सी 843343 एल)	01 जनवरी 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता			01 जनवरी 2013)
*****	हवलदार	कर्वे सुखादेव ईरप्पा	(10118849-के अब जे सी 843345 डब्ल्यू)	07 जनवरी 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता			07 जनवरी 2013)
*****	हवलदार	रबि शंकर शर्मा	(10327856-एल अब जे सी 843348 के)	22 जनवरी 2013
*****	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता			21 जनवरी 2013)

***** हवलदार राजेन्दर प्रसाद (3173469- डब्ल्यू अब 01 फरवरी 2013
जे सी 843359 डब्ल्यू)

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

***** हवलदार जाघव रामदास (14566232-एक्स अब 28 जनवरी 2013
लिपिक बाबूराव जे सी 843318 एम)

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्तूबर 2012)

***** हवलदार पवन कुमार (10302610-एफ अब 01 जनवरी 2013
लिपिक जे सी 843320 के)

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013)

आर पी एस नेगी
अवर सचिव

वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 137, दिनांक 23 मई 2014—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

श्री एम. राजाकन्नू, अपरमहानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन (मुख्यालय) दिनांक 15 मई 2014 से मुख्यालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली में महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन के रूप में पदोन्नत किए गए।

इंद्रजीत सेठी
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 138, दिनांक 23 मई 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नत करते हैं :-

श्री सोनम रिगदान को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी - II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित)के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2014 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 3 में रु. 15,600 - 39,100/- (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्री डी जी म्हरके को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित)के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01.01.2014 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 2 में रु. 9,300 - 34,800/- (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री हितेश कुमार को वरिष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड -II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित)के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 29.07.2009 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 3 में रु. 15,600 – 39,100/- (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर ।

राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई पदों तथा तारीख से डीआरडीओ में सहर्ष (ग्रुप बी) राजपत्रित पदोन्नतियां करते हैं :—

क्रम सं.	नाम	पद	स्था/प्रयो.	कार्यभार ग्रहण की तारीख	पै बैंड तथा ग्रेड पे
01	श्री एस डी वराडे	प्रशासनिक अधिकारी	वीआरडीई, अहमदनगर	24.12.2013	पीबी2] ग्रेड पे 4,600
02	श्रीमती एन ऊषा रानी	लेखा अधिकारी	ए एस एल, हैदराबाद	01.01.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600
03	श्री एम बालासुब्रह्मण्यम	लेखा अधिकारी	ए एस एल, हैदराबाद	01.01.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600
04	श्रीमती एस श्रीलता	लेखा अधिकारी	ए एस एल, हैदराबाद	01.01.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600
05	श्री विद्या सागर शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	एसपीएल, दिल्ली	01.01.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600
06	श्री अनिल कुमार गुप्ता	प्रशासनिक अधिकारी	एसपीएल, दिल्ली	01.01.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600
07	श्री अशोक कुमार स्याल	प्रशासनिक अधिकारी	डी आई पी ए एस, दिल्ली	01.01.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600
08	श्री जोसफ टोटस	प्रशासनिक अधिकारी	एनपीओएल, कोचि	01.01.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600
09	श्री टी एस पानीकर	प्रशासनिक अधिकारी	एनपीओएल, कोचि	20.01.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600
10	श्रीमती मैरीन जेबासिंह	लेखा अधिकारी	एचईएमआरएल, पुणे	27.03.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600
11	श्रीमती मैथली बद्रीनाथ	निजी सचिव	एआरडीई, पुणे	01.04.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600

राजीव रंजन खॉ
उपनिदेशक (कार्मिक)

थल सेना शाखा

सं. 139, दिनांक 26 मई 2014—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
(सेना चिकित्सा कोर)

01	एमआर-03909के	मेजर जनरल	एल आर शर्मा, एसएम, वीएसएम	पीसी	31 अगस्त 2013
02	एमआर-04225ए	मेजर जनरल	ए डी माथुर	पीसी	31 अगस्त 2013
03	एमआर-04803के	ब्रिगेडियर	एच सी पाठक	पीसी	31 अगस्त 2013
04	एमआर-05010एन	कर्नल	एम एम पान्डे	पीसी	31 जुलाई 2013
05	एमआर-04527एम	कर्नल(टीएस)	एस सी चराती	पीसी	31 जुलाई 2013
06	एमआर-05342एक्स	कर्नल(टीएस)	के बी देब	पीसी	31 जुलाई 2013
07	एमआर-05956ए	कर्नल	बी बी तिवारी	पीसी	31 जुलाई 2013
08	एमआर-05199डब्ल्यू	कर्नल	समीउल हक	पीसी	31 अगस्त 2013
09	एमआर-05106डब्ल्यू	कर्नल	हेम राज	पीसी	31 अगस्त 2013
10	एमआर-03959पी	कर्नल(टीएस)	एच एस रावत	पीसी	31 अगस्त 2013
11	एमआर-05258एक्स	कर्नल(टीएस)	पी वी एस राव	पीसी	31 अगस्त 2013
12	एमआर-04385ए	कर्नल	डी चक्रवर्ती	पीसी	31 अगस्त 2013
13	एनटीआर-16547एम	कर्नल	सुखदेव सिंह मोरे	पीसी	31 अगस्त 2013
14	एनटीआर-16600एम	कर्नल	एच एच पी सिंह	पीसी	31 अगस्त 2013
15	एमआर-03582डब्ल्यू	मेजर जनरल	हरिंदर सिंह	पीसी	30 जून 2013
16	एमआर-03902ए	मेजर जनरल	एस कुमारवेलु	पीसी	31 मई 2013
17	एमआर-03733के	ब्रिगेडियर	डी एस छाजता	पीसी	31 जनवरी 2013
18	एमआर-04309एन	ब्रिगेडियर	सतीश कुमार अग्रवाल	पीसी	30 जून 2013
19	एमआर-04437एल	ब्रिगेडियर	आर के सिंह, एसएम	पीसी	30 जून 2013
20	एमआर-05089एफ	ब्रिगेडियर	देश पाल	पीसी	30 जून 2013
21	एमआर-05294एच	ब्रिगेडियर	अरुण त्यागी, एसएम	पीसी	30 जून 2013
22	एमआर-04189ए	कर्नल	एस एस मिश्रा	पीसी	31 मार्च 2013
23	एमआर-04535एल	कर्नल	आर जगदीश प्रसाद	पीसी	30 जून 2013
24	एमआर-04669के	कर्नल	एस प्रधान	पीसी	31 मई 2013
25	एमआर-04945एफ	कर्नल	एस एस परमार	पीसी	31 मई 2013
26	एमआर-05291पी	कर्नल	ए के कक्कड़	पीसी	31 मई 2013
27	एमआर-05360ए	कर्नल	ए के नायक	पीसी	31 मई 2013
28	एमआर-05457एल	कर्नल	बी सी त्रिवेदी	पीसी	31 मई 2013
29	एमआर-05675के	कर्नल	(श्रीमती) शशिप्रभा प्रसाद	पीसी	30 जून 2013
30	एमआर-06181एम	कर्नल	डी भटनागर	पीसी	30 जून 2013
31	एमआर-07139ए	कर्नल	सुब्राता दास	पीसी	30 जून 2013
32	एमआर-04942एन	कर्नल(टीएस)	डी मित्रा	पीसी	30 जून 2013

राजवीर सिंह
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक स.से.चि.से. (मा.सं.)

थल सेना विभाग

सं. 140, दिनांक 26 मई 2014—राष्ट्रपति, थलसेना अनुदेश 37/78 के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों को थल सेना से सेवानिवृत्त करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थाई कमीशन)
सेवानिवृत्ति

क्रम सं.	निजी संख्या	रैंक	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
क	डीआर-10319एन	मेजर जनरल	आई पी मजीथिया	31-12-2013
ख	डीआर-10320एच	ब्रिगेडियर	राजेश मदान	30-11-2013
ग	डीआर-10327एम	कर्नल	अशोक बनर्जी	30-06-2013
घ	डीआर-10346एक्स	कर्नल (टी एस)	विनोद बब्बर	30-07-2013
ङ	डीआर-10321एल	कर्नल (टी एस)	दिलीप सेन	30-11-2013
च	डीआर-10329एक्स	कर्नल (टी एस)	एमएस मणी बीर	30-09-2013

एच एस संघू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

MINISTRY OF DEFENCE
New Delhi, the 21st June 2014
NATIONAL CADET CORPS
MS(D)

No. 131, dated 20th May 2014—The undermentioned is granted the honorary rank of Captain-in-Chief of the National Cadet Corps for the period of his appointment as Chief of the Naval Staff :—

Admiral RK Dhowan, PVSM, AVSM, YSM, ADC
Chief of the Naval Staff
IHQ of MoD (Navy)
New Delhi – 110011

17 Apr 2014

S KATARYA
Col
Offg Dy Dir Gen (MS)

ARMY BRANCH

No. 132, dated 20th May 2014—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended:—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(SHORT SERVICE COMMISSION)
To be Captain (On Probation)
(Antedate of Commission)

DS-12458W, Capt Ashish Bhalla

27-03-2012

with seniority for pay and promotion from 27-09-2008 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from Govt Dental College, Amritsar and 06 months for holding hospital appointment as a Lecturer in Genesis Institute of Dental Sciences & Research, Ferozpur, for the period from 18 Jun 2011 to 15 Mar 2012, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12460N, Capt Sandeep Kasana

02-04-2012

with seniority for pay and promotion from 02-04-2009 (36 months antedate for acquiring MDS degree from KLE VK Institute of Dental Sciences, Belgaum, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12461W, Capt Chamarthi Surya

02-04-2012

with seniority for pay and promotion from 02-10-2008 (includes 42 months antedate 36 months antedate for acquiring MDS degree from SIBAR Institute of Dental Sciences, Guntur, Andhra Pradesh and 06 months for holding appointment as a Sr Lecturer in St Joseph Dental College & Hospital, Eluru, for the period from 01-06-2010 to 27-03-2012, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12463F, Capt Sunil Kumar Goyal

09-04-2012

with seniority for pay and promotion from 09-10-2008 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from AME's Dental College & Hospital, Raichur, Karnataka and 06 months for holding appointment as a Senior Resident in SGT Dental College, Hospital & Research Institute, Budhera, Gurgaon, for the period from 29-08-2011 to 07-04-2012, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12466P, Capt Ravi Kanth Chintala

17-04-2012

with seniority for pay and promotion from 17-10-2008 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from Gitam Dental College and Hospital, Rushikonda and 06 months for holding appointment as a Senior Resident in St Joseph Dental College and Hospital, Duggirala, Eluru, for the period from 10-06-2011 to 10-04-2012, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12468A, Capt Shanender Singh Sambyal

18-05-2012

with seniority for pay and promotion from 18-11-2008 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from Bapuji Dental College & Hospital, Devangere and 06 months for holding appointment as a Senior Lecturer in Institute of Dental Sciences, Village Sehora, Kunjwani Bishnah Road, Tehsil & District Jammu (J&K), for the period from 13-06-2011 to 12-05-2012, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12471A, Capt (Ms) Amrinder Kaur Cheema

21-05-2012

with seniority for pay and promotion from 21-05-2009 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Army College of Dental Sciences, Secunderabad, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12481K, Capt Anant Singh

05-02-2013

with seniority for pay and promotion from 05-02-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Sardar Patel Post Graduate Institute of Dental & Medical Sciences, Lucknow of Dr Ram Manohar Lohia Avadh University, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12490L, Capt R Srinivasan

12-02-2013

with seniority for pay and promotion from 12-08-2009 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from Ragas Dental College & Hospital, Chennai and 06 months for holding hospital appointment as a Senior Lecturer in Priyadarshini Dental College & Hospital Pandur, (TN), for the period from Jul 2011 to Jan 2013, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12492W, Capt Tarun Kumar Singh

15-02-2013

with seniority for pay and promotion from 15-08-2009 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from Goa Dental College & Hospital, Bambolim, Goa and 06 months for holding appointment as a Lecturer in Shri Bankey Bihari Dental College & Research Centre Masuri, Ghaziabad (UP), for the period from 03 Aug 2012 to 11 Feb 2013, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12497P, Capt Patil Chetan Pralhad

19-02-2013

with seniority for pay and promotion from 19-02-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Faculty of Dental Sciences, King George's Medical University, Lucknow, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12512Y, Capt Priyank Gupta

14-03-2013

with seniority for pay and promotion from 14-09-2009 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from MM College of Dental Sciences & Research, Mullana, Ambala and 06 months for holding hospital appointment as a Senior Lecturer in Desh Bhagat College & Hospital, Muktsar, Punjab, for the period from 11-07-2011 to 28-02-2013, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12514K, Capt Kanaram Choudhary

20-03-2013

with seniority for pay and promotion from 20-03-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Govt Dental College, Trivandrum, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 133, dated 21st May 2014—The President is pleased to make the following appointment :—

Sh. Hitesh Kumar to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 28 July 2003 (F/N) in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/-.

Sh. D Nagesh to be Construction Engineer, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 17 Dec. 2013 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 6,600/-

RAJEEV RANJAN KHAN
Dy. Director (Pers)

ARMY BRANCH

No. 134, dated 21st May 2014—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen (& equivalent) to be Lt Gen (& equivalent)

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| (a) PP Varma, SM
(MR-04317M) | - | 01-12-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-12-13. |
|---------------------------------|---|--|

YASH PANDE
Maj General
Addl DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 135, dated 22nd May 2014—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| (a) SD Duhan, VSM
(MR-04014X) | - | 01-04-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-04-13. |
|----------------------------------|---|--|

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|--|
| (a) | RC Das
(MR-05452M) | - | 15-07-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-03-12. |
| (b) | A Bajpai
(MR-04812L) | - | 03-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 31-03-12. |
| (c) | S Katoch
(MR-04739X) | - | 20-07-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-04-12. |
| (d) | N Naithani
(MR-04745L) | - | 05-07-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-12. |
| (e) | RS Sarkar
(MR-04747W) | - | 01-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 29-05-12. |
| (f) | (Mrs) M Kanitkar
(MR-05596P) | - | 16-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-06-12. |
| (g) | D Chopra, VSM
(MR-05327H) | - | 02-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-07-12. |
| (h) | Surendra Mohan
(MR-04145H) | - | 11-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-07-12. |
| (i) | SS Vaishampayan
(MR-05474L) | - | 04-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-07-12. |
| (j) | DC Thakur, SM, VSM
(MR-05491L) | - | 15-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 08-07-12. |
| (k) | MM Harjai
(MR-05957H) | - | 05-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-12. |
| (l) | S Takiar
(MR-05323M) | - | 28-01-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-08-12. |
| (m) | SP Gorthi
(MR-04979P) | - | 01-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-08-12. |
| (n) | (Mrs) S Patyal
(MR-04869A) | - | 28-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-09-12. |
| (o) | JS Yadav
(MR-05436P) | - | 24-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-07-12. |
| (p) | AK Rajput
(MR-05487H) | - | 01-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-09-12. |

Lt Col (& equivalent) to be Col (Selection & equivalent)

- | | | | |
|-----|------------------------|---|---|
| (a) | V Kumar
(MR-05299F) | - | 01-09-08 with notional seniority without effect on pay & pension from 04-07-08. |
|-----|------------------------|---|---|

The Ministry of Defence Gazette Notification published in Part I Section-4 of the Gazette of India on 30 Sep 2008 under the heading Regular Army/Permanent Commission and Sub Heading Lt Col/Col (TS) to be Col (& equivalent) para 1(k) in respect of the above named officer may be treated as cancelled.

Lt Col to be Col (by selection)

- (a) Ashok Kumar (NTR-16608Y) - 01-09-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-13.
- (b) Vinod Kumaran T T (NTR-16651A) - 01-09-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-09-13.

Lt Col to Colonel (Time Scale)

1.	MR-06344P	LT COL	SAURAV CHANDA	19 JUN 2013
2.	MR-05938X	LT COL	M KUMAR	01 DEC 2013
3.	MR-05940P	LT COL	N KARKHANIS	01 DEC 2013

1	MR-05947Y	LT COL	SAUMEN CHAUDHURI	12 Aug 2013
2	MR-06177K	LT COL	(MRS) RITU BAKSHI	09 Sep 2013

1	MR-5550M	LT COL	R CHATURVEDI	01 DEC 2011
2	MR-07143H	LT COL	KK RAI	20 APR 2012
3	MR-05794A	LT COL	MK GUPTA	23 AUG 2012
4	MR-05747H	LT COL	AK AGARWAL	01 DEC 2012

1	MR-05733H	LT COL	T GHOSH	01 DEC 2012
2	MR-05901W	LT COL	SK DAS	01 MAY 2013
3	MR-05830A	LT COL	AS BHAYAL	01 JUN 2013

1.	NTR-16650X	LT COL	MADHU PREET SINGH	15 DEC 2013
2.	NTR-16653L	LT COL	JIT SINGH	15 DEC 2013
3.	NTR-16658K	LT COL	JS SANDHU	15 DEC 2013
4.	NTR-16654N	LT COL	GORAKHNATH SINGH	15 DEC 2013
5.	NTR-16574W	LT COL	MOHAN SINGH	15 DEC 2013

RAJVIR SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 136, dated 22nd May 2014—The President is pleased to make the following promotion /substantive:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar	Padam Bahadur Mall	(JC-629330-Y)	01 Jan 2013
Subedar	Jagdish Chand	(JC-578461-Y)	01 Jan 2013
Subedar	Rajendar Singh	(JC-488487-M)	01 Jan 2013
Subedar	Kashmir Singh	(JC-578502-X)	01 Jan 2013
Subedar	Shailendra Singh	(JC-418902-L)	01 Feb 2013

To be Substantive Subedar (GD)

Naib Subedar	Ram Gayan Ray	(JC-558745-F)	01 Oct 2012
Naib Subedar	Govindan K	(JC-841924-K)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Bedge Rava Saheb	(JC-204605-H)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Muthu P	(JC-236067-N)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Sher Singh	(JC-578711-P)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Balkar Singh	(JC-841931-A)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Rekh Bahadur Thapa	(JC-841940-F)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Madan Kumar Magar	(JC-607383-X)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Ujjar Singh Rana	(JC-602584-M)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Sabar Singh	(JC-529628-N)	01 Feb 2013
Naib Subedar	Unnikrishnan K	(JC-439075-F)	01 Feb 2013
Naib Subedar	Sumer Singh	(JC-841954-F)	01 Feb 2013
Naib Subedar	Dhananjer Singh	(JC-592049-W)	01 Feb 2013

To be Substantive Subedar/Clk (SD)

Naib Subedar/ Clk(SD)	Pradip Neog	(JC-842215-F)	01 Jan 2013
Naib Subedar/ Clk(SD)	Shyam Babu Pandey	(JC-842241-H)	01 Jan 2013
Naib Subedar/ Clk(SD)	Vikram Singh Bisht	(JC-842254-A)	01 Feb 2013

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar	Samunder Ram	(JC-402366-K)	01 Aug 2012
Subedar	Mohan Singh	(JC-260280-M)	01 Dec 2012
Subedar	Man Bahadur Limbu	(JC-634243-P)	01 Jun 2013
Subedar	Krishan Lal	(JC-142146-K)	01 Jul 2013
Subedar	Chitra Bahadur Gurung	(JC-212813-M)	01 Jul 2013

To be Substantive Subedar (GD)

Naib Subedar	Balbir Singh	(JC-592745-N)	01 Aug 2012
Naib Subedar	Surinder Singh	(JC-519872-A)	01 Aug 2012
Naib Subedar	Arvind Kumar Singh	(JC-841850-A)	01 Sep 2012
Naib Subedar	Baby George	(JC-419693-L)	01 Sep 2012
Naib Subedar	Suresh Kumar	(JC-238298-H)	01 Sep 2012
Naib Subedar	Pyar Chand Chouhan	(JC-518854-L)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Ramashankar Chaurasiya	(JC-841963-H)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Devraj Sharma	(JC-519117-W)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Prithvi Raj Singh	(JC-528821-N)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Jhari Lal	(JC-298722-K)	01 May 2013
Naib Subedar	Valsan T	(JC-842010-M)	01 May 2013

Naib Subedar	Karunakaran M	(JC-842013-A)	01 Jun 2013
Naib Subedar	V Jaya Kumar	(JC-842016-N)	01 Jun 2013
Naib Subedar	Surendra Prasad Gurung	(JC-842017-W)	01 Jun 2013
Naib Subedar	Gian Singh	(JC-842022-F)	01 Jun 2013
Naib Subedar	Jagjit Singh	(JC-842026-X)	01 Jun 2013
Naib Subedar	K Vasudevan	(JC-842042-P)	01 Jun 2013
Naib Subedar	Girdhari Lal	(JC-236278-W)	01 Jun 2013
Naib Subedar	Bajarang Singh Shekhawat	(JC-468542-W)	01 Jul 2013
Naib Subedar	Mahavir Singh Yadav	(JC-448432-A)	01 Jul 2013
Naib Subedar	Bhana Ram	(JC-478917-X)	01 Jul 2013
Naib Subedar	Surjit Singh	(JC-592944-F)	01 Jul 2013
Naib Subedar	Dharmendra Kumar	(JC-662432-P)	01 Jul 2013
Naib Subedar	Krishna Bahadur Thapa	(JC-623523-H)	01 Jul 2013

To be Substantive Subedar Major/Clk (SD)

Subedar/ Clk(SD)	Jagada Nanda Mohanty	(JC-841868-W)	01 Jun 2013
---------------------	----------------------	---------------	-------------

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar	Shanker Lal	(JC-370363-A)	01 Oct 2012
Subedar	Hargyan Singh Suhag	(JC-237347-N)	01 Oct 2012
Subedar	Prem Bahadur Roka	(JC-623216-L)	01 Mar 2013
Subedar	Surinder Kumar	(JC-578450-M)	01 Aug 2013
Subedar	Sisupalan Narayana	(JC-202787-H)	01 Aug 2013

To be Substantive Subedar (GD)

Naib Subedar	Onkar Nath	(JC-579269-F)	01 Aug 2012
Naib Subedar	Rakesh Mohan	(JC-528704-H)	01 Sep 2012
Naib Subedar	Gopal Singh	(JC-842881-M)	01 Oct 2012
Naib Subedar	Mathew KT	(JC-307308-P)	01 Nov 2012
Naib Subedar	Amar Singh	(JC-211126-K)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Hem Raj	(JC-841979-M)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Dharam Paul	(JC-842007-M)	01 May 2013
Naib Subedar	Dilbara Singh	(JC-508306-A)	01 Jul 2013
Naib Subedar	Sundar Tiwari	(JC-641104-N)	01 Jul 2013
Naib Subedar	Madan Singh	(JC-529159-W)	01 Jul 2013
Naib Subedar	Ram Sharan Singh	(JC-479285-K)	01 Jul 2013
Naib Subedar	Om Prakash Mishra	(JC-725442-W)	01 Jul 2013
Naib Subedar	Inder Singh	(JC-579903-Y)	01 Aug 2013
Naib Subedar	Kuldip Singh	(JC-519949-X)	01 Aug 2013
Naib Subedar	Benny KK	(JC-403423-M)	01 Aug 2013

Naib Subedar	Khem Bahadur Chhetri	(JC-629712-H)	01 Aug 2013
Naib Subedar	Avtar Singh	(JC-329233-H)	01 Aug 2013
Naib Subedar	Min Bahadur Gurung	(JC-617722-A)	01 Aug 2013
Naib Subedar	Baksish Singh	(JC-450171-W)	01 Aug 2013
Naib Subedar	Surinder Singh	(JC-241531-W)	01 Aug 2013

To be Substantive Subedar Major/Clk (SD)

Subedar/ Clk(SD)	S Dhanaraj	(JC-841967-Y)	01 Aug 2013
---------------------	------------	---------------	-------------

To be Substantive Subedar /Clk (SD)

Naib Subedar/ Clk(SD)	Vempati Sri Hari Rao	(JC-842310-N)	01 Aug 2013
Naib Subedar/ Clk(SD)	Drona Charya Joshi	(JC-842311-W)	01 Aug 2013

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar	Amrik Singh	(JC-218061-K)	01 Feb 2013
Subedar	Satya Ranjan Das	(JC-840792-P)	01 Feb 2013
Subedar	Rajendra Rai	(JC-623335-F)	01 Feb 2013

To be Substantive Subedar (GD)

Naib Subedar	Suranjan Singh	(JC-841915-H)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Krishna Nand Srivastava	(JC-237071-H)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Kamaljeet Choudhary	(JC-255298-Y)	01 Feb 2013
Naib Subedar	Benny MP	(JC-438736-K)	01 Feb 2013
Naib Subedar	Partap Singh	(JC-428878-N)	01 Feb 2013
Naib Subedar	Prem Chand	(JC-489488-F)	01 Feb 2013
Naib Subedar	Joginder Singh	(JC-841947-L)	01 Feb 2013
Naib Subedar	Munshi Ram	(JC-841949-W)	01 Feb 2013
Naib Subedar	Balap Singh	(JC-528487-X)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Amarendra Kumar Amar	(JC-841964-L)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Shiv Datt Singh	(JC-841989-X)	01 Mar 2013

To be Substantive Subedar/Clk (SD)

Naib Subedar/ Clk(SD)	Dev Prakash Tiwari	(JC-842212-N)	01 Jan 2013
Naib Subedar/ Clk(SD)	Yashpal Panwar	(JC-842301-M)	01 Feb 2013

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar	Damodaran J	(JC-259855-K)	01 Apr 2013
Subedar	Mahabir Prasad	(JC-488566-L)	01 Apr 2013
Subedar	Awadhesh Kumar	(JC-141689-Y)	01 Apr 2013
Subedar	Chandrappa Akki	(JC-840918-K)	01 Apr 2013
Subedar	Joginder Chand Sharma	(JC-588009-X)	01 May 2013
Subedar	Gopal Lal Gurjar	(JC-478102-W)	01 May 2013
Subedar	Thakur Singh Parihar	(JC-538323-P)	01 May 2013
Subedar	Amar Bahadur Karki	(JC-6914823-L)	01 May 2013
Subedar	Nanda Kumaran MR	(JC-418149-X)	01 May 2013
Subedar	Bharat Singh	(JC-418036-P)	01 May 2013
Subedar	Hans Raj	(JC-428179-H)	01 May 2013

To be Substantive Subedar (GD)

Naib Subedar	Sanatan Das	(JC-810322-P)	01 Feb 2013
Naib Subedar	Bhagwan Dass	(JC-579000-F)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Sudarshan Singh Yadav	(JC-841962-A)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Mathra Dass Raina	(JC-579260-M)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Vijay Bahadur	(JC-841972-K)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Surinder Kumar	(JC-841976-A)	01 Mar 2013
Naib Subedar	Madan Lal	(JC-841998-Y)	01 Apr 2013
Naib Subedar	Balwinder Pal Singh	(JC-508513-M)	01 Apr 2013
Naib Subedar	Suresh Kuamr	(JC-403339-M)	01 Apr 2013
Naib Subedar	Nandan Singh	(JC-539436-K)	01 Apr 2013
Naib Subedar	Khogendra Singh, SM	(JC-548841-H)	01 Apr 2013
Naib Subedar	Gurnam Singh	(JC-509047-P)	01 Apr 2013
Naib Subedar	Basant Singh	(JC-349394-M)	01 Apr 2013
Naib Subedar	Vijay Kumar	(JC-580097-K)	01 Apr 2013
Naib Subedar	Mani Babu Singha	(JC-549211-P)	01 Apr 2013
Naib Subedar	Khushal Singh	(JC-413010-W)	01 May 2013
Naib Subedar	Ram Kumar Limbu	(JC-634064-P)	01 May 2013
Naib Subedar	Rajbir Singh	(JC-489486-W)	01 May 2013
Naib Subedar	Mohinder Singh	(JC-429781-P)	01 May 2013
Naib Subedar	Jhabar Mal Pawadia	(JC-489372-L)	01 May 2013

Naib Subedar	Sube Singh	(JC-299202-L)	01 May 2013
Naib Subedar	Rakesh Kumar	(JC-430020-W)	01 May 2013
Naib Subedar	Rakesh Kumar	(JC-842000-H)	01 May 2013
To be Substantive Subedar Major (GD)			
Subedar	Mahavir Prasad	(JC-538191-M)	01 Oct 2012
Subedar	Sivakumaran Nair V	(JC-438080-A)	01 Oct 2012
Subedar	Pradeep Kumar Gurung	(JC-612004-A)	01 Nov 2012
Subedar	Bhoj Bahadur Gurung	(JC-183554-K)	01 Dec 2012
Subedar	Rajendran A	(JC-305580-H)	01 Dec 2012
Subedar	Balbir Singh	(JC-449165-W)	01 Dec 2012
To be Substantive Subedar (GD)			
Naib Subedar	Yam Babadur Dhurel Magar	(JC-612472-A)	01 Aug 2012
Naib Subedar	Manbir Singh	(JC-256562-N)	01 Oct 2012
Naib Subedar	Amrit Pal Singh	(JC-237158-K)	01 Oct 2012
Naib Subedar	Jitendra Prasad	(JC-558492-X)	01 Oct 2012
Naib Subedar	Dhas Ashok Ramchandra	(JC-842880-K)	01 Oct 2012
Naib Subedar	Bachhu Singh	(JC-469303-N)	01 Oct 2012
Naib Subedar	Shaminder Singh	(JC-328703-W)	01 Oct 2012
Naib Subedar	Dipak Chhetri	(JC-629494-P)	01 Oct 2012
Naib Subedar	Diwan Singh	(JC-662471-N)	01 Nov 2012
Naib Subedar	Anil Kumar Tiwari	(JC-264394-P)	01 Nov 2012
Naib Subedar	Mathew KT	(JC-307308-P)	01 Nov 2012
Naib Subedar	David D	(JC-725276-N)	01 Nov 2012
Naib Subedar	Puran Singh Shahi	(JC-694448-N)	01 Nov 2012
Naib Subedar	Aravindakshan PK	(JC-265189-A)	01 Nov 2012
Naib Subedar	Jagdish Singh Nayal	(JC-569388-K)	01 Nov 2012
Naib Subedar	Hotovi Shikhu	(JC-548942-W)	01 Nov 2012
Naib Subedar	Mujaffar Khan	(JC-479480-F)	01 Nov 2012
Naib Subedar	Jai Krishan Rana	(JC-374483-W)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Pratap Singh	(JC-469574-L)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Raghav Prasad Keshari	(JC-239657-X)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Satish Kumar	(JC-267637-A)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Rajender Singh Rawat	(JC-268738-A)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Pradip Kuamr	(JC-569853-L)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Kishun Singh	(JC-241002-K)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Bhagwan Singh Jasrotia	(JC-579021-X)	01 Dec 2012

Naib Subedar	Kumar Chhetri	(JC-263496-Y)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Sonam Dukpa	(JC-602161-F)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Yeak Bahadur Thapa	(JC-623003-X)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Balbir Singh	(JC-841894-X)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Shesh Mani	(JC-841901-H)	01 Dec 2012
Naib Subedar	M Arumugham	(JC-841902-L)	01 Dec 2012
Naib Subedar	Gulzar Singh	(JC-841905-Y)	01 Dec 2012
Naib Subedar	M Anandan	(JC-841925-M)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Puran Singh	(JC-841929-H)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Kapildeo Singh	(JC-841934-N)	01 Jan 2013
Naib Subedar	V Rama Chandran	(JC-841939-M)	01 Jan 2013
Naib Subedar	Desai Pandit Shripati, SM	(JC-458627-Y)	01 Jan 2013

To be Substantive Subedar/Clk (SD)

Naib Subedar/ Clk(SD)	Pawan Kumar Kalia	(JC-842208-L)	01 Nov 2012
Naib Subedar/ Clk(SD)	Tarsem Kumar	(JC-842209-N)	01 Nov 2012

To be Naib Subedar (GD)

*	Hav	Rajanikant More	(10149648-M JC-843442-N)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Jagtar Singh	(3978040-M JC843443-W)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Sarv Dev Dubey	(14464884-H JC-843444-Y)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Hoshiyar Singh	(4056146-Y JC-843445-F)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Surjit Singh	(4457259-F JC-843446-K)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Rajendra Prasad Choubey	(14904480-Y JC-843447-M)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Sucha Singh	(3382278-M JC-843449-X)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Jagjit Singh	(3383821-A JC-843451-P)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Jagrup Chand	(10197151-M JC-843455-L)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Hardeep Singh	(10197328-P JC-843460-W)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Gurbachan Singh	(10197443-P JC-843461-Y)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Patil Yuvraj Nago	(10436090-H JC-843463-K)	Now	01 Jul 2013

*	Hav	Lalan Singh	(4262258-Y JC-843465-P)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Prabhu Dayal	(10302078-A JC-843466-X)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Ramabilash	(10404662-L JC-843468-H)	Now	01 Jul 2013
*	Hav	Lalji Sharma	(10389092-A JC-843469-L)	Now	01 Jul 2013

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2013 without effect on pay and allowances)

**	Hav	Uday Narayan Singh	(13612012-Y JC-843474-W)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Netra Pal	(2873102-M JC-843475-Y)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Jagdish Chand	(13681172-K JC-843476-F)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	OM Jose	(10165547-H JC-843477-K)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Bishan Singh	(9081044-A JC-843479-P)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Ram Milan	(10181442-H JC-843480-K)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Shyambir Awasthi	(2982846-N JC-843481-M)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Ram Dayal Rai	(10181665-A JC-843482-P)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Ram Karan	(1470389-A JC-843484-A)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Joginder Singh	(3383673-M JC-843485-H)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Jitendra Singh Yadav	(10181393-L JC-843486-L)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Balbir Singh	(3382850-P JC-843488-W)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Balwinder Singh	(3383506-W JC-843489-Y)	Now	01 Aug 2013
**	Hav	Chander Bhan	(3172604-M JC-843490-N)	Now	02 Aug 2013

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2013 without effect on pay and allowances)

***	Hav	Jhanda Singh	(3973626-Y JC-843497-X)	Now	02 Sep 2013
-----	-----	--------------	----------------------------	-----	-------------

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar / Clk(SD)

****	Hav/ Clk(SD)	Rajnath Yadav	(10181678-X JC-843470-A)	Now	01 Aug 2013
------	-----------------	---------------	-----------------------------	-----	-------------

****	Hav/ Clk(SD)	Dhaneswar SA	(10260107-A JC-843471-H)	Now	01 Aug 2013
------	-----------------	--------------	-----------------------------	-----	-------------

****	Hav/ Clk(SD)	Rama Kant Mishra	(10436173-N JC-843472-L)	Now	01 Aug 2013
------	-----------------	------------------	-----------------------------	-----	-------------

****	Hav/ Clk(SD)	Jadhav Ajinath Dnyandeo	(14498384-X JC-843473-N)	Now	05 Aug 2013
------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	-----	-------------

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk(SD) wef 01 Aug 2013 without effect on pay and allowances)

*****	Hav/ Clk(SD)	Santbir Singh	(10405274-A JC-843491-W)	Now	01 Sep 2013
-------	-----------------	---------------	-----------------------------	-----	-------------

*****	Hav/ Clk(SD)	Hanumanthu Veeranna	(14269607-X JC-843492-Y)	Now	01 Sep 2013
-------	-----------------	---------------------	-----------------------------	-----	-------------

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk(SD) wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (GD)

*	Hav	Kan Singh	(10302186-K JC-843116-L)	Now	13 Feb 2012
---	-----	-----------	-----------------------------	-----	-------------

*	Hav	Ajit Singh	(10361027-K JC-843117-N)	Now	13 Feb 2012
---	-----	------------	-----------------------------	-----	-------------

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

**	Hav	Shri Chand	(13614544-X JC-843342-H)	Now	13 Mar 2013
----	-----	------------	-----------------------------	-----	-------------

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

***	Hav	Johny KA	(10289794-K JC-843379-K)	Now	25 Mar 2013
-----	-----	----------	-----------------------------	-----	-------------

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Mar 2013 without effect on pay and allowances)

****	Hav	Dilip Rai	(9416055-P JC-843416-M)	Now	22 May 2013
------	-----	-----------	----------------------------	-----	-------------

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2013 without effect on pay and allowances)

*****	Hav	Surjit Singh	(3383198-F JC-843419-A)	Now	20 May 2013
-------	-----	--------------	----------------------------	-----	-------------

*****	Hav	Tarsem Singh	(3383456-W JC-843420-P)	Now	20 May 2013
-------	-----	--------------	----------------------------	-----	-------------

*****	Hav	Jaswant Singh	(3382279-P JC-843421-X)	Now	20 May 2013
-------	-----	---------------	----------------------------	-----	-------------

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 May 2013 without effect on pay and allowances)

*****	Hav	Jagrup Singh	(10404777-Y JC-843426-W)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Sucha Singh	(3381787-Y JC-843427-Y)	Now	01 Jun 2013
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Lakhwinder Singh	(3383674-P JC-843428-F)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Bhajan Singh	(3383767-K JC-843429-K)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Sukhchan Singh	(3383160-X JC-843430-Y)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Tarsem Singh	(3383653-Y JC-843431-Y)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Sarabjit Singh	(3383789-H JC-843432-K)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Naginder Pal Singh	(3383788-A JC-843433-M)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Ram Singh	(3383213-L JC-843434-P)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Harjinder Singh	(3383029-A JC-843435-X)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Harbans Singh	(3383283-K JC-843436-A)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Baljit Singh	(3383123-K JC-843437-H)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Manjit Singh	(3382807-N JC-843438-L)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Harbans Singh	(3382990-F JC-843439-N)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav	Surjit Singh	(3382385-N JC-843440-H)	Now	01 Jun 2013
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Kulwinder Singh	(3383909-W JC-843448-P)	Now	01 Jul 2013
*****	Hav	Harjinder Pal Singh	(3382832-M JC-843450-M)	Now	01 Jul 2013
*****	Hav	Jagtar Singh	(3382324-W JC-843452-X)	Now	01 Jul 2013
*****	Hav	Kuldip Singh	(3383652-W JC-843453-A)	Now	01 Jul 2013
*****	Hav	Labh Singh	(3383259-L JC-843454-H)	Now	01 Jul 2013

*****	Hav	Ramadhar	(10404386-A JC-843456-N)	Now	01 Jul 2013
*****	Hav	Shiv Pratap Singh	(2970677-L JC-843457-W)	Now	01 Jul 2013
*****	Hav	Subash Singh	(3973445-N JC-843458-Y)	Now	01 Jul 2013
*****	Hav	Brijesh Singh	(3165745-Y JC-843459-F)	Now	01 Jul 2013

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2013 without effect on pay and allowances)

*****	Hav	Gajraj Singh	(10404875-Y JC-843462-F)	Now	01 Jul 2013
*****	Hav	Shib Ram Thapa	(5447417-N JC-843464-M)	Now	01 Jul 2013
*****	Hav	Kehar Singh	(10478728-L JC-843467-A)	Now	01 Jul 2013

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2013 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar / Clk(SD)

*****	Hav/ Clk(SD)	Karande Nagnath	(10118879-F JC-843422-A)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav/ Clk(SD)	A Manoharan	(10452099-F JC-843424-L)	Now	01 Jun 2013

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk wef 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (GD)

*	Hav	Rabindra Prasad Rai	(2973987-F JC-843212-A)	Now	18 Mar 2013
---	-----	---------------------	----------------------------	-----	-------------

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

**	Hav	Saram Singh	(13614280-F JC-843263-N)	Now	27 Dec 2012
----	-----	-------------	-----------------------------	-----	-------------

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

***	Hav	Deo Raj Singh	(10181526-W JC-843349-M)	Now	12 Mar 2013
-----	-----	---------------	-----------------------------	-----	-------------

***	Hav	Gokul Rai	(5446776-P JC-843350-F)	Now	15 Mar 2013
-----	-----	-----------	----------------------------	-----	-------------

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

****	Hav	Shivpal Waghmare	(10227643-H JC-843333-F)	Now	05 Mar 2013
------	-----	------------------	-----------------------------	-----	-------------

****	Hav	Subash Chander	(10361291-X JC-843340-X)	Now	01 Jan 2013
------	-----	----------------	-----------------------------	-----	-------------

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

***** Hav Roop Singh (2466863-F JC-843347-F) Now 15 Feb 2013

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

***** Hav Collector Dubey (14470564-K JC-843354-X) Now 01 Feb 2013

***** Hav S Ramar (14361048-Y JC-843357-L) Now 25 Feb 2013

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allowances)

***** Hav Sohan Singh Rawat (4059497-Y JC-843362-W) Now 14 Mar 2013

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Feb 2013 without effect on pay and allowances)

***** Hav Ram Gopal Singh (10404578-L JC-843363-Y) Now 01 Mar 2013

***** Hav Rabati Lal (14375400-H JC-843371-X) Now 09 Mar 2013

***** Hav Raghubir Singh (10389280-F JC-843374-L) Now 01 Mar 2013

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013 without effect on pay and allowances)

***** Hav Rajender Prasad (10134272-Y JC-843378-F) Now 25 Mar 2013

***** Hav Ravindran KV (10289859-M JC-843380-Y) Now 25 Mar 2013

***** Hav Tarsem Lal (10361333-Y JC-843381-F) Now 25 Mar 2013

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Mar 2013 without effect on pay and allowances)

***** Hav Dalbir Singh (10197715-K JC-843386-A) Now 01 Apr 2013

***** Hav Kishan Singh (10313966-P JC-843387-H) Now 01 Apr 2013

***** Hav Amrit Gurung (5041848-W JC-843388-L) Now 01 Apr 2013

***** Hav Kamlesh Chand (13742398-N JC-843389-N) Now 06 Apr 2013

***** Hav Om Prakash Sharma (10361279-W JC-843390-H) Now 01 Apr 2013

***** Hav Pan Singh (10404633-W JC-843391-L) Now 01 Apr 2013

***** Hav Tejuddin Mian (10244331-H JC-843392-N) Now 01 Apr 2013

*****	Hav	Satya Narain	(14245697-L JC-843393-W)	Now	01 Apr 2013
*****	Hav	Suresh Yadav	(10389393-K JC-843394-Y)	Now	02 Apr 2013
*****	Hav	Ranbir Singh	(13612953-M JC-843395-F)	Now	01 Apr 2013
*****	Hav	Shiv Raj Singh Bhardwaj	(10404719-P JC-843396-K)	Now	01 Apr 2013
*****	Hav	Prodip Chandra Saikia	(14351555-Y JC-843397-M)	Now	01 Apr 2013
*****	Hav	Kripal Singh	(2673108-K JC-843398-P)	Now	01 Apr 2013
*****	Hav	Ashok Kumar Rana	(5243494-F JC-843399-X)	Now	01 Apr 2013
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2013 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Man Bahadur Chhetri	(5844796-X JC-843400-F)	Now	29 Apr 2013
*****	Hav	Sewa Singh	(3383346-F JC-843401-K)	Now	29 Apr 2013
*****	Hav	Naresh Singh	(2877197-P JC-843402-M)	Now	29 Apr 2013
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Apr 2013 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Radhey Shyam Yadav	(10181720-L JC-843403-P)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Asha Ram	(10404650-W JC-843404-X)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Kaliya Murthy A	(10451632-Y JC-843405-A)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Dina Nath Singh	(6378715-M JC-843406-H)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Amar Deo Sharma	(8824320-M JC-843407-L)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Davinder Singh	(4457411-K JC-843408-N)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Narain Datt	(1459825-M JC-843409-W)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Ratna Bahadur Rai	(9414311-A JC-843410-L)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Ramesh Kumar	(6367325-K JC-843411-N)	Now	01 May 2013

*****	Hav	Bhagwan Singh Gurung	(5343919-K JC-843412-W)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Sukh Man Limbu	(9415864-H JC-843413-Y)	Now	07 May 2013
*****	Hav	Birendra Pal Singh	(2872963-W JC-843414-F)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Dalip Singh	(2875582-A JC-843415-K)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Mastan Singh	(3382177-Y JC-843417-P)	Now	01 May 2013
*****	Hav	Harbhajan Singh	(3382683-K JC-843418-X)	Now	01 May 2013

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2013 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar / Clk(SD)

*****	Hav/ Clk(SD)	Surjit Singh	(3382411-K JC-843382-K)	Now	01 Apr 2013
*****	Hav/ Clk(SD)	Abhiman Raut	(10227372-W JC-843383-M)	Now	01 Apr 2013
*****	Hav/ Clk(SD)	Bhaskaran N	(10290300-F JC-843384-P)	Now	01 Apr 2013
*****	Hav/ Clk(SD)	Habibullah Khan	(13750171-P JC-843385-X)	Now	01 Apr 2013

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk(SD) wef 01 Apr 2013 without effect on pay and allowances)

(To be Naib Subedar / Clk(SD))

*****	Hav/ Clk(SD)	Anil Malakar	(10374151-K JC-843423-H)	Now	01 Jun 2013
*****	Hav/ Clk(SD)	Sanjay Rathore	(14260609-F JC-843425-N)	Now	01 Jun 2013

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk(SD) wef 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (GD)

*	Hav	Swaran Singh	10361215-L JC-843279-Y	Now	22 Feb 2013
---	-----	--------------	---------------------------	-----	-------------

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

**	Hav	Naresh Chandra Naik	10259489-H JC-843299-M	Now	21 Dec 2012
----	-----	---------------------	---------------------------	-----	-------------

**	Hav	Ram Murat Yadav	10404542-M JC-843311-H	Now	11 Feb 2013
----	-----	-----------------	---------------------------	-----	-------------

**	Hav	Repudaman Singh Yadav	1266019-Y JC-843314-W	Now	22 Feb 2013
----	-----	-----------------------	--------------------------	-----	-------------

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

***	Hav	Sital Singh	1559484-F JC-843360-L	Now	11 Feb 2013
***	Hav	Suraj Parkash	10361770-Y JC-843361-N	Now	02 Feb 2013
*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allowances)					
****	Hav	Krishna Kumar Srivastava	10389250-K JC-843364-F	Now	01 Mar 2013
****	Hav	Mahender Singh	13680580-H JC-843365-K	Now	01 Mar 2013
****	Hav	Raveendran AV	10289783-X JC-843366-M	Now	01 Mar 2013
****	Hav	Janak Raj	9081592-A JC-843367-P	Now	11 Mar 2013
****	Hav	Raj Bahadur Gurung	5243758-X JC-843368-X	Now	01 Mar 2013
****	Hav	Bota Singh	3381516-F JC-843370-P	Now	01 Mar 2013
**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Chhankar Singh	14451887-X JC-843372-A	Now	01 Mar 2013
*****	Hav	Satish Kumar	13748776-X JC-843373-H	Now	01 Mar 2013
*****	Hav	L Arul Pushba Raj	13611819-P JC-843375-N	Now	01 Mar 2013
*****	Hav	Lal Prasad Bura	5040376-Y JC-843376-W	Now	01 Mar 2013
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allowances)					
*	Hav	Satpaul	2469953-W JC-843251-Y	Now	01 Feb 2013
*	Hav	Kisna Bahadur Thapa	9413888-N JC-843253-K	Now	10 Jan 2013
*	Hav	Ragbir Lal	9084151-P JC-843254-M	Now	29 Jan 2013
* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Sep 2012 without effect on pay and allowances)					
**	Hav	Saitan Singh	10301966-H JC-843285-M	Now	21 Jan 2013
**	Hav	Raja Ram Tiwari	2979116-X JC-843287-X	Now	24 Jan 2013
**	Hav	T Lamzasoi	4351241-A JC-843290-X	Now	05 Feb 2013
**	Hav	Ram Phool Singh	7772123-W JC-843295-W	Now	04 Feb 2013
** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Nov 2012 without effect on pay and allowances)					

***	Hav	Kulwant Singh	4461307-N JC-843328-W	Now	01 Jan 2013
***	Hav	Liladhar	2872203-N JC-843330-N	Now	01 Jan 2013
***	Hav	GH Mohiudin Khan	9081878-P JC-843336-P	Now	09 Jan 2013
***	Hav	Mohan Lal Raina	1063611-A JC-843339-H	Now	04 Feb 2013
*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Mohkam Singh	14909274-Y JC-843351-K	Now	01 Feb 2013
*****	Hav	Swapan Kumar Sarkar	14347830-W JC-843352-M	Now	01 Feb 2013
*****	Hav	Tara Bahadur Gurung	5242276-W JC-843353-P	Now	01 Feb 2013
*****	Hav	Naresh Pal Singh	14248603-N JC-843355-A	Now	01 Feb 2013
*****	Hav	Ravi G	14357450-L JC-843356-H	Now	01 Feb 2013
*****	Hav	Bagicha Singh	3377190-Y JC-843358-N	Now	05 Feb 2013
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Om Prakash	2974985-H JC-843369-A	Now	01 Mar 2013
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013 without effect on pay and allowances)					
*	Hav	Surendra Prasad Nayak	10260142-H JC-843017-H	Now	07 Nov 2012
* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)					
**	Hav	Chinkholun	4350785-N JC-843034-H	Now	06 Oct 2012
** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)					
***	Hav	Mangal Chauhan	14342925-M JC-843206-M	Now	03 Jul 2012
*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Dharamveer	10358181-X JC-843256-X	Now	10 Nov 2012
*****	Hav	Ram Phal	14347080-H JC-843257-A	Now	03 Dec 2012
*****	Hav	Mani Ram	10361022-L JC-843258-H	Now	16 Dec 2012
*****	Hav	Dhan Singh	1465542-F JC-843259-L	Now	26 Nov 2012

****	Hav	Mahender Singh Yadav	14340876-W JC-843262-L	Now	26 Nov 2012
****	Hav	V Velayutham	14333439-N JC-843264-W	Now	22 Nov 2012
****	Hav	C Subramaniam	10451587-X JC-843265-Y	Now	20 Nov 2012
****	Hav	Maruti Ningappa Kedari	10420018-H JC-843266-F	Now	27 Nov 2012
****	Hav	V Rajendran	10451607-A JC-843267-K	Now	10 Dec 2012
*****(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Ajay Singh	13611719-K JC-843268-M	Now	08 Oct 2012
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Oct 2012 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Brij Mohan Lal	10404507-K JC-843269-P	Now	22 Nov 2012
*****	Hav	Dudh Nath Yadav	10404541-K JC-843270-K	Now	01 Dec 2012
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2012 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Kuldip Rai	10197445-A JC-843275-H	Now	19 Nov 2012
*****	Hav	Rup Lal	13735842-W JC-843277-N	Now	01 Nov 2012
*****	Hav	Baldev Singh	10361138-F JC-843278-W	Now	11 Dec 2012
*****	Hav	Babu Lal	10134181-P JC-843281-W	Now	01 Nov 2012
*****	Hav	Ram Kuver	10465846-A JC-843282-Y	Now	15 Nov 2012
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Brinda Prasad Singh	2666180-X JC-843283-F	Now	05 Nov 2012
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Nov 2012 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Pasang Tamang	5448244-N JC-843286-P	Now	26 Nov 2012
*****	Hav	Ram Chela Carpenter	10389082-W JC-843291-A	Now	26 Nov 2012
*****	Hav	Ved Prakash	4168384-M JC-843292-H	Now	27 Nov 2012
*****	Hav	Joginder Singh	14466542-N JC-843294-N	Now	26 Nov 2012

*****	Hav	Ram Kalyan Jat	2670212-M JC-843296-Y	Now	27 Nov 2012
-------	-----	----------------	--------------------------	-----	-------------

*****	Hav	Bhagirath Ram	2669569-W JC-843297-F	Now	08 Dec 2012
-------	-----	---------------	--------------------------	-----	-------------

*****	Hav	Kashi Nath	10227151-K JC-843298-K	Now	11 Dec 2012
-------	-----	------------	---------------------------	-----	-------------

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

*****	Hav	P Rajasekharan	10165527-P JC-843302-F	Now	01 Dec 2012
-------	-----	----------------	---------------------------	-----	-------------

*****	Hav	Sumer Chand	10404501-H JC-843303-K	Now	07 Dec 2012
-------	-----	-------------	---------------------------	-----	-------------

*****	Hav	Ganga Ram	10314265-L JC-843304-M	Now	01 Dec 2012
-------	-----	-----------	---------------------------	-----	-------------

*****	Hav	C Chenthamara	10165607-M JC-843310-A	Now	01 Dec 2012
-------	-----	---------------	---------------------------	-----	-------------

*****	Hav	Jadav Dattatray	10118862-N JC-843312-L	Now	07 Dec 2012
-------	-----	-----------------	---------------------------	-----	-------------

*****	Hav	Mohanan KV	10358697-A JC-843315-Y	Now	10 Dec 2012
-------	-----	------------	---------------------------	-----	-------------

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar /Clk)

*****	Hav/ Clk	Nar Babadur Gurung	5244165-X JC-843355-P	Now	12 Nov 2012
-------	-------------	--------------------	--------------------------	-----	-------------

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

*****	Hav/ Clk	U Vijaya Kumar	10451994-A JC-843271-M	Now	01 Nov 2012
-------	-------------	----------------	---------------------------	-----	-------------

*****	Hav/ Clk	Brijendra Kumar Singh	1058457-H JC-843272-P	Now	01 Nov 2012
-------	-------------	--------------------------	--------------------------	-----	-------------

*****	Hav/ Clk	S Venkateswaran	14577480-K JC-843273-X	Now	01 Nov 2012
-------	-------------	-----------------	---------------------------	-----	-------------

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

*****	Hav/ Clk	Lavhate Sharad Baban	14407264-N JC-843317-K	Now	03 Mar 2012
-------	-------------	----------------------	---------------------------	-----	-------------

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

*****	Hav/ Clk	Gurmeet Singh	8824100-H JC-843321-M	Now	01 Jan 2013
-------	-------------	---------------	--------------------------	-----	-------------

*****	Hav/ Clk	Darshan Lal	3977350-L JC-843323-X	Now	01 Jan 2013
-------	-------------	-------------	--------------------------	-----	-------------

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

*	Hav	S Rajendran	10358363-L JC-843252-F	Now	19 Dec 2012
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Sep 2012 without effect on pay and allowances)					
**	Hav	M Fayaz Ali	1366064-P JC-843260-A	Now	24 Dec 2012
**	Hav	Umesh Kumar Singh	6367424-M JC-843261-H	Now	17 Dec 2012
**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)					
***	Hav	Suresh Chandra Chauhan	4059259-M JC-843274-A	Now	14 Dec 2012
***	Hav	Paramjit Singh	4461909-F JC-843276-L	Now	18 Dec 2012
***	Hav	Padam Bahadur Chhettri	5844083-M JC-843280-N	Now	17 Dec 2012
****(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)					
****	Hav	Prema Kumar AK	14547778-H JC-843293-L	Now	31 Dec 2012
*****(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Nov 2012 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Danial Nayak	10259135-A JC-843300-W	Now	01 Dec 2012
*****	Hav	Kirpa Ram Verma	4174913-K JC-843301-Y	Now	05 Dec 2012
*****	Hav	Pattan Ameer Khan	1376370-H JC-843305-P	Now	01 Dec 2012
*****	Hav	Basanta Kishore Sahoo	4260204-Y JC-843306-X	Now	29 Dec 2012
*****	Hav	Patil Namdeo Gangaram	14241852-K JC-843308-H	Now	18 Dec 2012
******(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Jagdish Singh	101976620-K JC-843316-F	Now	10 Dec 2012
******(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Dec 2012 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav	Santokh Singh	4454965-X JC-843324-A	Now	01 Jan 2013
*****	Hav	A Lazar	10289547-W JC-843326-L	Now	01 Jan 2013
*****	Hav	Ram Bahadur Thapa	5342656-K JC-843334-K	Now	01 Jan 2013
*****	Hav	Rajesh Kumar	10405471-H JC-843341-A	Now	01 Jan 2013
*****	Hav	Ishwar Singh	10181669-W JC-843344-N	Now	05 Jan 2013
******(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)					

***** Hav Dinesh Chandra Kashyap 14216240-F Now 07 Jan 2013
JC-843346-Y

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

* Hav Tej Singh 10302067-N Now 07 Jan 2013
JC-843284-K

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

** Hav Dharmarajan R 2574298-Y Now 23 Jan 2013
JC-843288-A

** Hav Krishna Bhushan Prasad 4256096-H Now 05 Feb 2013
JC-843289-H

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

*** Hav Netra Prasad Gurung 5040574-K Now 07 Jan 2013
JC-843307-A

*** Hav Gandhi Boyina China Babu 2580332-K Now 04 Feb 2013
JC-843309-L

*** Hav Patil Tanaji Ananda 10146563-L Now 16 Jan 2013
JC-843313-N

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)

**** Hav Birender Prasad Puri 14465608-M Now 29 Jan 2013
JC-843325-H

**** Hav Ginkhansut Paite 4350693-W Now 01 Jan 2013
JC-843327-N

**** Hav Sunil Kumar Pandey 8824261-L Now 07 Feb 2013
JC-843329-Y

**** Hav Patil Ashok Shankar 10436718-A Now 01 Jan 2013
JC-843331-W

**** Hav Avdesh Singh 10404472-Y Now 01 Jan 2013
JC-843332-Y

**** Hav Shamshir Khan 2673476-Y Now 11 Jan 2013
JC-843335-M

**** Hav Dinesh Kumar Das 10260275-Y Now 01 Jan 2013
JC-843337-X

**** Hav Gurdial Singh 14323265-L Now 01 Jan 2013
JC-843338-A

**** Hav Harjit Singh 10478732-N Now 01 Jan 2013
JC-843343-L

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

***** Hav Karve Sukhadeo Irappa 10118849-K Now 07 Jan 2013
JC-843345-W

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

***** Hav Ravi Shankar Sharma 10327856-L Now 22 Jan 2013
JC-843348-K

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

***** Hav Rajender Prasad 3173469-W Now 01 Feb 2013
JC-843359-W

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar/Clk (SD)

***** Hav/ Jadhav Ramdas Baburav 14566232-X Now 28 Jan 2013
Clk JC-843318-M

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

***** Hav/ Pawan Kumar 10302610-F Now 01 Jan 2013
Clk JC-843320-K

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

R. P. S. NEGI
Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

No. 137, dated 23rd May 2014—The President of India is pleased to make the following promotion :—

Shri M Rajakannu, Addl. Director General, AQA(HQ) as Director General, Aeronautical Quality Assurance in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 15 May 2014.

INDERJEET SETHI
Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 138, dated 23rd May 2014—The President is pleased to make the following promotion :—

Sh. Sonam Rigdan to be Sr. Admin Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 01 Jan 2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs 5,400/-.

Sh. DG Mhaske to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan 2014 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-.

Sh. Hitesh Kumar to be Sr. Stores Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 29 July 2009 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- (PB3) and Grade Pay of Rs. 5,400/-.

The President is pleased to make the following promotions (Gp 'B') Gazetted to the under mentioned Officers for the Post and Date shown against their names:—

S. No.	Name	Post of promotion	Estt/Lab	Date of joining	Pay band and grade pay
01.	Sh. S D Varade	AO	VRDE, Ahmednagar	24.12.13	PB-2, GP-4,600/-
02.	Smt. N Usha Rani	AcO	ASL, Hyderabad	01.01.14	PB-2, GP-4,600/-
03	Sh. M Balasubramanyam	AcO	ASL, Hyderabad	01.01.14	PB-2, GP-4,600/-
04	Smt. S Srilatha	AcO	ASL, Hyderabad	01.01.14	PB-2, GP-4,600/-
05.	Sh. Vidya Sagar Sharma	AO	SPL, Delhi	01.01.14	PB-2, GP-4,600/-
06.	Sh. Anil Kumar Gupta	AO	SPL, Delhi	01.01.14	PB-2, GP-4,600/-
07.	Sh. Ashok Kumar Syal	AO	DIPAS, Delhi	01.01.14	PB-2, GP-4,600/-
08.	Sh. Joseph Titus	AO	NPOL, Kochi	01.01.14	PB-2, GP-4,600/-
09.	Smt. TS Panicker	AO	NPOL. Kochi	20.01.14	PB-2, GP-4,600/-
10.	Smt. Marine Jebasingh	AcO	HEMRL, Pune	27.03.14	PB-2, GP-4,600/-
11.	Smt. Mythili Badrinath	PS	ARDE, Pune	01.04.14	PB-2, GP-4,600/-

RAJEEV RANJAN KHAN
Dy. Director(Pers)

ARMY BRANCH

No 139, dated 26th May 2014—The president is pleased to retire the under mentioned officers on attaining the age of superannuation as indicated against each:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

1.	MR-03909K	Maj Gen	LR Sharma, SM, VSM	PC	31 Aug 2013(AN)
2.	MR-04225A	Maj Gen	AD Mathur	PC	31 Aug 2013 (AN)
3.	MR-04803K	Brig	HC Pathak	PC	31 Aug 2013 (AN)
4.	MR-05010N	Col	MM Pandey	PC	31 Jul 2013 (AN)
5.	MR-04527M	Col(TS)	SC Charati	PC	31 Jul 2013 (AN)
6.	MR-05342X	Col(TS)	KB Deb	PC	31 Jul 2013 (AN)
7.	MR-05956A	Col(TS)	BB Tewari	PC	31 Jul 2013 (AN)
8.	MR-05199W	Col	Samiul Haque	PC	31 Aug 2013 (AN)

9.	MR-05106W	Col	Hem Raj	PC	31 Aug 2013(AN)
10.	MR-03959P	Col(TS)	HS Rawat	PC	31 Aug 2013 (AN)
11.	MR-05258X	Col(TS)	PVS Rao	PC	31 Aug 2013(AN)
12.	MR-04385A	Col	D Chakrabarty	PC	31 Aug 2013 (AN)
13.	NTR-16547M	Col	Sukhdev Singh More	PC	31 Aug 2013 (AN)
14.	NTR-16600M	Col	HHP Singh	PC	31 Aug 2013 (AN)

1	MR-03582W	Maj Gen	Harinder Singh	PC	30 Jun 2013 (AN)
2	MR-03902A	Maj Gen	S Kumaravelu	PC	31 May 2013 (AN)
3	MR-03733K	Brig	DS Chhajta	PC	31 Jan 2013(AN)
4	MR-04309N	Brig	Satish Kumar Aggarwal	PC	30 Jun 2013 (AN)
5.	MR-04437L	Brig	RK Singh, SM	PC	30 Jun 2013 (AN)
6.	MR-05089F	Brig	Desh Pal	PC	30 Jun 2013 (AN)
7.	MR-05294H	Brig	Arun Tyagi, SM	PC	30 Jun 2013 (AN)
8.	MR-04189A	Col	SS Mishra	PC	31 Mar 2013(AN)
9.	MR-04535L	Col	R Jagadish Prasad	PC	30 Jun 2013 (AN)
10.	MR-04669K	Col	S Pradhan	PC	31 May 2013 (AN)
11.	MR-04945F	Col	SS Parmar	PC	31 May 2013 (AN)
12.	MR-05291P	Col	AK Kakkar	PC	31 May 2013 (AN)
13.	MR-05360A	Col	AK Nayak	PC	31 May 2013 (AN)
14.	MR-05457L	Col	BC Trivedi	PC	31 May 2013 (AN)
15.	MR-05675K	Col	(Mrs) Shashi Prabha Prasad	PC	30 Jun 2013 (AN)
16.	MR-06181M	Col	D Bhatnagar	PC	30 Jun 2013 (AN)
17.	MR-07139A	Col	Subrata Das	PC	30 Jun 2013 (AN)
18.	MR-04942N	Col(TS)	D Mitra	PC	30 Jun 2013 (AN)

RAJVIR SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 140, dated 26th May 2014—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service, w.e.f. the dates shown against their names under AI 37/78 :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

RETIREMENT

Sr No	Personal No	Rank	Name	Date of Retirement
(a)	DR-10319N	Maj Gen	IP Majithia	31-12-2013
(b)	DR-10320H	Brig	Rajesh Madan	30-11-2013
(c)	DR-10327M	Col	Ashok Banerji	30 -06-2013
(d)	DR-10346X	Col (TS)	Vinod Bubber	31-07-2013
(e)	DR-10321L	Col (TS)	Dilip Sen	30-11-2013
(f)	DR-10329X	Col(TS)	MSM Biir	30-09-2013

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in